



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25—अगस्त 31, 2007 (भाद्रपद 3, 1929)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25—AUGUST 31, 2007 (BHADRA 3, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 6 अगस्त 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/149/3/17/95--श्री ओ. पी. छात्रवाल ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.07.2007 अपराह्न से पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अनुराग

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2007/150/3/64/2004-पर्स.1--श्री वी. टी. नंदकुमार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पर दिनांक 15.7.2007 से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

अनुराग

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. पी.तीन-2/2007-कार्मिक-3--सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक से प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षकों ने प्रत्येक के सामने लिखे गए कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों को प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्य ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री टी. एम. मेथू प्रशा. अधिकारी, ईरला-7262	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्त केन्द्र के.रि.पु. बल मुजफ्फरपुर (बिहार)	29.06.2007 (पूर्वा.)
2.	श्री एस. एस. पावर प्रशा. अधिकारी, ईरला-7271	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक के.रि.पु. बल, जम्मू (जे एंड के)	16.07.2007 (पूर्वा.)

1	2	3	4
3.	श्री किशोर सोरेंग प्रशा. अधिकारी, इरला-7256	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक के.रि.पु. बल नई दिल्ली	16.07.2007 (पूर्व.)
4.	श्री जगन्नाथ सिंह प्रशा. अधिकारी, इरला-7266	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल ग्वालियर (एम.पी.)	09.07.2007 (पूर्व.)

के. के. शिवा प्रसाद
अ. पु. उ. महा. (कार्मिक-3)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. ओ-दो-1472/80-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--डॉक्टर (श्रीमती)
ज्योत्सनामई नायक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ.एस.जी.)
(इरला-1419), संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु. बल, बिलासपुर
(छत्तीसगढ़) ने स्वेच्छ से सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 25.6.2007
(पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की
नफरी से दिनांक 25.6.2007 (पूर्वाह्न) से निकाला गया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-7052/2007-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र
स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री मनीष पान्डे, सहायक कमान्डेंट
(आई.आर.एल.ए.-7052), प्रशिक्षक अधिकारी, सीआरपीएफ अकादमी
कादरपुर (Trainee Officer, 38th batch DAGOs of CRPF
Academy Kadarapur) ने दिनांक 19.07.2007 को (अपराह्न) में अपने
पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी
तिथि से अर्थात् दिनांक 19.07.2007 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3757/07-सी.आर.सी.(एम.ओ.जी.)--राष्ट्रपति जी, डाक्टर
दीपक कुमार (इरला-7278) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी
होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक
कमान्डेंट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी
रूप से दिनांक 19.5.2007 (अपराह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष
नियुक्त करते हैं। उन्हें 53 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात
किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. ए-12012/3 (अ.नि.)/2007-प्रशा.II--भारत के राष्ट्रपति इस
निदेशालय के श्री के. के. शर्मा, संयुक्त निदेशक को 14,300-18,300/-
रुपए के वेतनमान में दिनांक 26 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से अपर
निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

यह भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की दिनांक 25 जुलाई,
2007 की डायरी सं. 639/एम.ओ.एस.(जे)/07 द्वारा अनुमोदित है।

कमलेश डेका
निदेशक

सं. ए-17011/40(डी-118)/2006-प्रशा.I--इस निदेशालय के
श्री दुर्गा नन्द दास, संयुक्त निदेशक अपनी अधिवर्षिता की आयु होने पर
दिनांक 31.07.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

कमलेश डेका
निदेशक

वित्त मंत्रालय

बैंक नोट मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

देवास, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. बीएनपी/सी/44198-1--श्री आर. के. सुपेकर, नियंत्रण निरीक्षक
को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपए 6,500-200-10,500
(समूह-ख राजपत्रित) में दिनांक 1.8.2007 से अन्य आगामी आदेशों
तक नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

डी. व्ही. गोडनाले
महाप्रबन्धक

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड-422 101, दिनांक 26 जुलाई 2007

विषय :--राजपत्रित अधिकारी वर्ग-'ख' की तदर्थ पदोन्नति।

सं. 7133/स्था-18-1--विभागीय पदोन्नति समिती वर्ग ख की सिफारिशों
पर श्री व्ही.जी. जामखेडकर, निरीक्षक नियंत्रण, को भारत प्रतिभूति
मुद्रणालय, में उप नियंत्रण अधिकारी (ग्रुप 'ख') के पद पर नियमित
आधार पर दिनांक 10.7.2007 से वेतनमान रु. 6,500-200-10,500 में
नियुक्त किया गया है।

वे नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

प्रकाश नारायण
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय : महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.--इस कार्यालय के श्री मदन मोहन बक्शी, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (रु. 8,000-275-13,500) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.8.2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 16.8.1947 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 4.8.1969 है।

विक्रम डी. मुरुगराज
उप-निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सि.ले.प.) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500 004, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. प्रशा.-I/5-4/2007-2008/59--प्रधान महालेखाकार (सि.ले.प.) आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल) 'लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल)' के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारि(यों) का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नति तिथि
(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)			
1.	टी. श्रीनिवास रेड्डी	78/31/7/07	01.08.2007
2.	ओ. वि. सुब्रह्मन्या शर्मा	78/31/7/07	01.08.2007

उपर्युक्त पदोन्नतियां उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण) में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार के दिनांक 26.9.1981 के का.जा.सं. एफ 7/1/80-स्था(पी.1) तथा दिनांक 08.02.1983 एफ 13/26/82 स्था (पी.1) के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

सी. सैलजा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा)

सं. प्रशा.I/8-132/2007-2008/60--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) ने सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) को उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि के अनुसार सेवानिवृत्त किए जाने की घोषणा की है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	पी. राजा गोपाला राव (व.ले.प.अ.)	31.07.2007
2.	पी. वेंकट राव (व.ले.प.अ.)	31.07.2007

सी. सैलजा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400 085, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. पीडी/7(14)/2006-भर्ती-IV/7021--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डा. अप्पादुराई लगेरियस रूफुस, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड ई (वेतनमान श्रेणी रु. 12,000-375-16,500) को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एफ (वेतनमान श्रेणी रु. 14,300-400-18,300) के रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 2 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

डा. जी. डी. पुंगले
नियंत्रक

मुंबई-400 085, दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. पीडी/6(2)/2007-आर-III/2007/7049--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री मॅथ्यू एम. जॉन, सहायक, भापअ केन्द्र, मुंबई को दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 2 अगस्त 2007

सं. 6(2462)/2007-प्रशा./1636--राष्ट्रपति, श्री एम. प्राण कोंचाडी (आईसीएस : 1982) को दिनांक 23.07.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक रु. 18,400-500-22,400 के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 3 अगस्त 2007

सं. 18/4/2007-ईआर/2262--श्री संजय सी. पटेल का त्याग पत्र स्वीकृत होने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 29.6.2007 के अपराह्न से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआईआरबी) से वैज्ञानिक अधिकारी/ई के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. क्रभनि/11005/भर्ती/3670--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय (क्रभनि), परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) ने श्री एन. सुब्रमणि, सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500) को लेखा अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु. 7,450-250-12,000) इस निदेशालय में दिनांक 25 जून, 2007 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक नियुक्त किया है।

एस. कृष्णन

प्रशासन अधिकारी-III

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. सिद्धान्त पोलीमर प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12647/6001--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सिद्धान्त पोलीमर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा

कम्पनी रजिस्ट्रार

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. रायल जरनीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14685/6005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रायल जरनीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा

कम्पनी रजिस्ट्रार

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. वसुन्धरा नोन वूवन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10138/6009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वसुन्धरा नोन वूवन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा

कम्पनी रजिस्ट्रार

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. सोवरिन अपोथेके एण्ड सेल्स मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9392/6013--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सोवरिन अपोथेके एण्ड सेल्स मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा

कम्पनी रजिस्ट्रार

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. खुशबू फिनकैप लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14192/6017--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. खुशबू फिनकैप लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा

कम्पनी रजिस्ट्रार

राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. होटल साजन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12572/6021--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. होटल साजन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. दीक्षा मार्केटिंग लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14978/6033--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. दीक्षा मार्केटिंग लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जीएलजे एक्सल-मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14748/6025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जीएलजे एक्सल-मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. उमा आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6616/6037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. उमा आटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. चार्टर्ड सोल्यूशन्स एण्ड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14817/6029--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. चार्टर्ड सोल्यूशन्स एण्ड सॉफ्टवेयर लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जे. आर. मोदी ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/17075/6041--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जे. आर. मोदी ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मील कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/17068/6045--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मील कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सी. जी. एम. फोरेस्ट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14591/6053--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सी. जी. एम. फोरेस्ट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. स्कोट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14809/6049--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. स्कोट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अशोक वाटिका अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14409/6061--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अशोक वाटिका अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. राम प्रसाद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14341/6057--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. राम प्रसाद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सिटीलाईफ फेसिलिटी कार्ड प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15130/6065--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सिटीलाईफ फेसिलिटी कार्ड प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. भीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. महला डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13743/6093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. महला डेयरी प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सनगोल्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13781/6105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी प्रै. सनगोल्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सारा मोटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13762/6097--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सारा मोटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बांसवाड़ा सीमेंट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11933/6109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी पै. बांसवाड़ा सीमेंट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सुदर्शन कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13771/6101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सुदर्शन कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शंभु सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6132/6113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शंभु सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. एस. पी. इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11444/6117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. एस. पी. इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. टिवंकल कार्गो एण्ड ट्रेवलस प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11529/6121--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. दिवंगल कारगो एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. अखिलेश बाल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11542/6125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अखिलेश बाल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बीजे जेम्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11980/6129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. बीजे जेम्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. ओवरसीज साफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सो./560/11580/6133--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. ओवरसीज साफ्टवेयरस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. एस एस डी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12694/6137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. एस एस डी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. के के रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9144/6141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. के के रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. यशवंत प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12136/6153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. यशवंत प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जेमिनी फोटो प्रोसेज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12532/6145--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जेमिनी फोटो प्रोसेज प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सेठ चन्दु लाल रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14114/6157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सेठ चन्दु लाल रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पिक सिटी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15589/6149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. पिक सिटी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आईक्यू कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10756/6161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आईक्यू कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बी. आर. कैसिट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15118/6165--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. बी. आर. कैसिट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. अमृत लीला इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13422/6177--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अमृत लीला इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. वी. दाजी रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14165/6169--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वी. दाजी रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. धनलक्ष्मी क्रियेशन्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14638/6173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. धनलक्ष्मी क्रियेशन्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. जी. सी. एम. बिल्ड-कॉन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14357/6181--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जी. सी. एम. बिल्ड-कॉन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. हस्ता-ला-विस्ता रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/17044/6185--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हस्ता-ला-विस्ता रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. डॉयल मी होम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14490/6213--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. डॉयल मी होम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हार्ड कोर फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13801/6225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हार्ड कोर फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सिल्वर लेक होलीडे होम्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14360/6217--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सिल्वर लेक होलीडे होम्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रिलेक्स सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4420/6229--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रिलेक्स सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हनुमान साल्ट एण्ड अलाईड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14179/6221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हनुमान साल्ट एण्ड अलाईड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री योगी लेमीनेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6567/6233--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्री योगी लेमीनेशन्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. विशेष फाइनेन्सियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7048/6237--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. विशेष फाइनेन्सियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सबटेक होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10433/6249--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सबटेक होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. परिधि सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10429/6241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. परिधि सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. इण्डस वैली गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6717/6253--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. इण्डस वैली गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नार्थ केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8828/6245--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. नार्थ केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्यामगीरी केपफीन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12696/6257--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्यामगीरी केपफीन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पिंक यू बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12628/6285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में, पिंक यू बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. ब्राइट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6165/6297--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में ब्राइट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सियांस फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12664/6289--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सियांस फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्ट्मेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जी. बी. अलायन प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सो./560/6169/6301--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जी. बी. अलायन प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मौणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नम्रता सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6168/6293--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. नम्रता सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मौणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शारदा रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6162/6305--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शारदा रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मंगलम डाटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6164/6309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मंगलम डाटेक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सतनाम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11656/6321--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सतनाम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. इण्डियन एडवेन्वर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8171/6313--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. इण्डियन एडवेन्वर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. फाउन्टेनहेड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8300/6325--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. फाउन्टेनहेड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. इन फाईन केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8191/6317--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. इन फाईन केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. चन्दन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12235/6329--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. चन्दन इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अल्लाशा अल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/128261/6333--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अल्लाशा अल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. वेदमाता सेल्स एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6122/6345--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वेदमाता सेल्स एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. गंगा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12266/6337--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. गंगा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. गोस्वामी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6266/6349--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. गोस्वामी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. लायल एग्रो फाउन्ड्री प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6297/6341--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. लायल एग्रो फाउन्ड्री प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हिमांशु बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11626/6353--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हिमांशु बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. ओडियन एप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सो./560/11662/6357--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. ओडियन एस्पायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. समन मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6072/6361--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में सुमन मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. परवीन थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15858/6365--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैं. परवीन थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. होटल ग्रीन व्यू प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13032/6369---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. होटल ग्रीन व्यू प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जगदम्बा रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4028/6373--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जगदम्बा रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शालीमार सर्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4346/6377--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शालीमार स्यूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मान कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13073/6405--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मान कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रघुपति अलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13481/6409--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रघुपति अलॉयज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. डडीयाला कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11416/6413--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. डडीयाला कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आदिवासी कृषि फार्म एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11941/6417--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आदिवासी कृषि फार्म एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. लखन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11578/6421--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. लखन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. डेल्टा सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14186/6425--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. डेल्टा सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. साल्टी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6681/6429--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. साल्टी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. प्रो टेक वीडियो इमेजिंग लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6667/6441--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. प्रो टेक वीडियो इमेजिंग लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. लेप्रोस्कोपिक्स सर्जरीज (यू एस एस एल) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6669/6433--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. लेप्रोस्कोपिक्स सर्जरीज (यू एस एस एल) लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मिनिमल इन्वेजिट्स (यू एस एस एल) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6668/6445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मिनिमल इन्वेजिट्स (यू एस एस एल) लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अग्रवाल सिंह कैपिटल मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6697/6437--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अग्रवाल सिंह कैपिटल मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री श्याम फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6692/6449--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्री श्याम फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री भगवती माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10931/6453--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्री भगवती माइन्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रश्मि सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10906/6457--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में रश्मि सिन्थेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. दिनिटी टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10507/6461--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में ट्रिनिटी टेक्नोकैम प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बनास कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7043/6465--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. बनास कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. दीक्षित गैसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपूर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11594/6469---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. दीक्षित गैसेज प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शुभांकर कार्ड प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10527/6473--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शुभांकर कार्ड प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधितर कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सिंगल फर्टीलाइजर प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13907/6481--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सिंगल फर्टीलाइजर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. डिजाइन सलेक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6487/6489--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. डिजाइन सलेक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आर्या कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4369/6477--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आर्या कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. ब्रजवासी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13650/6493--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. ब्रजवासी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सुलभ डेकोर प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7012/6485--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सुलभ डेकोर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अंचल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7289/6497--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अंचल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शिवशक्ति सटिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15914/6525--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शिवशक्ति सूटिंग प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. खेतान एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सो./560/15736/6529--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. खेतान एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सनराज सिव्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10658/6533--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैं. सनराज सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विफल कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री गोपी कृष्णा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13856/6537--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी पै. श्री गोपी कृष्णा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जस्सल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपूर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सो./560/13802/6541--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जस्सल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. गुप्ता फेब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13804/6545--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. गुप्ता फेब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्रीगंगानगर ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/17018/6549--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्रीगंगानगर ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. स्वास्तिक टान्जिट मिक्सर प्राइवेट लिमिटेड को सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/16689/6553--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. स्वास्तिक ट्रांजिट मिक्सर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नवल बाग रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15635/6557--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जवल बाग रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. टोपब्रास इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15095/6561--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रोपब्रास इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सांवरिया एयर प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14198/6565--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सांवरिया एयर प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. प्रापर डील एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9466/6569--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैं, प्रापर डील एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. परिवार सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9396/6573--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. परिवार सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सारन ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15840/6585--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सारन ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जीजे अक्वा हाईजिनिक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15831/6577--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जीजे अक्वा हाईजिनिक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सिग्नेट टेलीकम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14011/6589--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सिग्नेट टेलीकम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अंकित इडिबल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12672/6581--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अंकित इडिबल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मां भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12540/6593--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मां भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. के. सी. बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12513/6593--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. के. सी. बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हर्ष हाईजिन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14563/6609--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हर्ष हाईजिन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रंगोली केपिटल लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/12180/6601--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रंगोली केपिटल लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्रीलाडलीजी कम्प्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14595/6613--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्रीलाडलीजी कम्प्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. युनिक टेलीलिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/16851/6605--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. युनिक टेलीलिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. गोल्डरेंज फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/14559/6617--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. गोल्डरेंज फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. एमवी मेडीट्रांस ऑन लाइन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/16786/6621--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. एमवी मेडीट्रांस ऑन लाइन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. के. डी. कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10554/6633--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. के. डी. कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. सरोज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4493/6625--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सरोज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. सांगानेर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7364/6637--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सांगानेर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. उदयपुर फोटोसेट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4290/6629--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. उदयपुर फोटोसेट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. वर्सायडल प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4342/6641--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वर्सायडल प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. पी. जी. एच. थर्मो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4008/6645--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. पी. जी. एच. थर्मो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. री खीवंसर सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6104/6657--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. री खीवंसर सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. स्वास्तिक कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7463/6649--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. स्वास्तिक कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. अजन्ता प्रोसेस इक्यूपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6010/6661--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अजन्ता प्रोसेस इक्यूपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. मिसाका हाइटेक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11562/6653--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मिसाका हाइटेक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. कानजी फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11568/6665--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. कानजी फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. ब्रिलिएन्ट मैगनेटिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7123/6669--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. ब्रिलिएन्ट मैगनेटिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हाई वैल्यू इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13800/6681--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में, हाई वैल्यू इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अवान्त मार्टे इण्डिया एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

જયપુર, દિનાંક 23 અપ્રેલ 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7131/6673--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैं. अवान्त मार्दे इण्डिया एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
 मै. सर्वज्ञ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13755/6685--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में सर्वज्ञ केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. राजस्थान पेट्रोलियम्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7141/6677--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. राजस्थान पेट्रोलियम्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रिद्धि सिद्धि कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13772/6689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रिद्धि सिद्धि कोलोनोइजर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शिवम इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15908/6693--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शिवम इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पूजा इलेक्ट्रो यऊन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13287/6705--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. पूजा इलेक्ट्रो यऊन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पदमावती डाई स्पस प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15160/6697--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. पदमावती डाई स्पस प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नीरा फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6158/6709--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. नीरा फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आदिनाथ प्रोकॉन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13393/6701--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आदिनाथ प्रोकॉन प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पृथ्वी एवटेड्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6139/6713--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. पृथ्वी एवटेड्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सोनावत स्पीनर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13442/6717---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सोनावत स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बी. एम. कौन्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13445/6721--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. बी. एम. कैर्न्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी मिथदित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नाकोडा नेच्यूरल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13432/6725--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. नाकोडा नेचूरल्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. कोपकेम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10656/6729---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में, कोपकेम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. संजय फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4443/6733---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी में संजय फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शिवांग फार्मिनेस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4309/6737--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शिवांग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्ट्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. भीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जीत इनकेप लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11920/6765--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जीत इनकेप लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जयपुर धुन्धार रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8357/6777--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जयपुर धुन्धार रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. कालिन्दी ग्रीन कोपिटल लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11903/6769--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. कालिन्दी ग्रीन कोपिटल लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. निधि इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4374/6781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. निधि इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. एस. सी. जी. फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11953/6773--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. एस. सी. जी. फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सिंह सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4304/6785--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सिंह सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अचिन्त क्रिस्टल ग्लास प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4409/6789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अचिन्त क्रिस्टल ग्लास प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अग्रसेन सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6618/6801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अग्रसेन सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रेडिकल रेर अर्थ मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4457/6793--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रेडिकल रेर अर्थ मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जिन्दल सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6615/6805--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जिन्दल सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अरावली होलीडेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10703/6797--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अरावली होलीडेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हयात डेवलपर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6604/6809--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हयात डेवलपर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्याम कोल एण्ड कोक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6603/6813--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्याम कोल एण्ड कोक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. विजय श्री कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7020/6829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. विजय श्री कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. हाटकैब केबल्स एण्ड वायर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6593/6817--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. हाटकैब केबल्स एण्ड वायर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. रवीन्द्र सिक्थोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9481/6825--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. रवीन्द्र सिक्थोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. समीर कलर लेब प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/10596/6821--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. समीर कलर लेब प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. राजपुताना ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13841/6833--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. राजपुताना ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. वान सॉफ्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13795/6861--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वान सोफ्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. दीप जेम्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8028/6845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. दीप जेम्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. स्पैक्ट्रम जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13734/6865--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. स्पैक्ट्रम जेम्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधुक्ति कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अशावा इन्फोनेट मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15730/6873--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैं अशावा इन्फोनेट मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री मंगल एन्टरटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11454/6869--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्री मंगल एन्टरटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आर. जस्सल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13803/6877--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आर. जस्सल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मदर क्रिएशन्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13199/6881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मदर क्रिएशन्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जाजोडिया बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13321/6893--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जाजोडिया बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. वीर वर्धमान रोलवेल प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13288/6885--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वीर वर्धमान रोलवेल प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आदर्श कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15729/6897--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आदर्श कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सोकिंया एग्रो फोरेस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15186/6889--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सोकिंया एग्रो फोरेस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. एमीनेन्ट मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/5723--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. एमीनेन्ट मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सफायर ट्रैवेल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13359/6905--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सफायर ट्रैवेल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पेगमेटिक मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8884/6917--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. पेगमेटिक मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री चंपादीप हॉस्पिटैलिटी एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15636/6909--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्री चंपादीप हॉस्पिटैलिटी एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. यूनिक टेलीकॉम एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8085/6921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. यूनिक टेलीकॉम एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मातेश्वरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/13196/6913--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मातेश्वरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शकुन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/9650/6925--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. शकुन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बीकानेर कॉटन लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/15592/6929--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. बीकानेर कॉटन लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. जमना सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8023/6941--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. जमना सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. फाल्गुन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8203/6933--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. फाल्गुन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. ग्रीन बेल्ट इण्डिया इन्फॉर्मेशन्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/7376/6949--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. ग्रीन बेल्ट इण्डिया इन्फॉर्मेशन्स लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अनुराग सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8078/6937--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. अनुराग सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आशा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/5382/6953--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आशा सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. लाडली सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/5578/6957--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. लाडली सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. इ.टी. सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8083/6969--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. इ.टी. सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. सुविधा भवन निर्माण प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/5519/6961--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. सुविधा भवन निर्माण प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. आरुशी सिक्योरिटी एण्ड केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8091/6973--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. आरुशी सिक्योरिटी एण्ड केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री आराधना केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/11777/6965--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. श्री आराधना केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. राजपुताना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4510/6977--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. राजपुताना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मेवाड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6632/6981--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. मेवाड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. एक्शन सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/4103/6993--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. एक्शन सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. खत्री सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6017/6985--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. खत्री सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. वासुदेव वेजीटेरियन होम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/6839/6997--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. वासुदेव वेजीटेरियन होम प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नील गगन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. आर.ओ.सी./560/8321/6989--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मै. नील गगन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पारस इण्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 003586/816--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. पारस इण्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. लालपट्टी टेडिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-003562/817--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. लालपट्टी ट्रेडिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. बाबा शिवम टर्स व ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असाम की 02-0035061/818--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. बाबा शिवम टूर्स व ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. नैटिंगैल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का नांगालैण्ड की 14-003223/819--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. नैटिन्लै नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. डेसको फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-003505/820--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि मै. ट्रेसको फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. काजिरंगा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असाम की 02-003522/821--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. काजिरंगा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. शामबिट होटल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का त्रिपुरा की 19-003548/822--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. शामबिट होटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मै. प्लास्ट इण्डिया पाईप्स व केबिल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असाम की 02-003518/823--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. प्लास्ट इण्डिया पाईप्स व केबिल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्वीटी कोरियर व एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असाम की 02-003507/824--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. श्वीटी कोरियर व एग्जेंसी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. पान्ग्रम एग्रीकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असाम की 02-003555/825--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. पान्नाम एग्रीकोम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नोबोलॉक टर्स व टेक्स् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असाम की 02-003559/826---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. नोबोलोक टूर्स व ट्रेवलस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. नार्थ ईस्ट एविएशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-003573/827--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि मै. नार्थ ईस्ट एविएशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. मेघालया टयब्स व इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का मेघालय की 13-001982/828--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. मेघालया द्यूब्स व इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. शेवियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001. दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-001968/829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. शेवियो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अरुणाचल एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का अरुणाचल प्रदेश की 23-001979/830--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैं, अरुणाचल एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. श्री शुस्वानी स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-003583/845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. श्री शुस्वानी स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बाणी प्रोकाष प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-003576/846--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. बाणी प्रोकाष प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. फटिकचेरा रब्वर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का त्रिपुरा की 19-003588/847--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. फटिकचेरा रब्वर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. अरुणाचल टोबाको कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का अरुणाचल प्रदेश की 23-003579/2007/849--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. अरुणाचल टोबाको कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. बरुहास अस्पताल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. 2007 का असम की 02-003560/850--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. बरुहास अस्पताल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 6 अगस्त 2007

सं. 22442 से 30529 तक/560(3)/एसयूओ एमओटीटीओ-2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अनुसार पर नीचे दिए गए कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :—

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
01	23597	ग्रामि प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड ।
02	24760	प्रोमोर प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
03	25558	गैपर वाली प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
04	25564	अलिया प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
05	25657	एवरेस्ट पालीसाक्स (इण्डिया) लिमिटेड ।
06	26022	खोडै ऐस्वरयास होलीडे रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
07	26024	माक्सिमा चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड ।
08	26039	कमलेश फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
09	26063	ओरियाण अक्वा फाम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
10	26086	मुकेश प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ।
11	26090	ब्रिन्दावन आग्री फाम्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
12	26095	चिण्णम्माल फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड ।
13	26108	मेट्रो डिटेक्टीव एजेंसी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड ।
14	26109	श्री गणेश साल्वेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
15	26112	पीसेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
16	26180	पापैन आग्री फाम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
17	26368	सररश लेदरस प्राइवेट लिमिटेड ।
18	26379	पेरफामन्स कम्प्यूटर & इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड ।
19	26953	के.ए.के. चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड ।
20	27024	होटल जास्मिन प्राइवेट लिमिटेड ।
21	27069	राधाकृष्णा इन्वेस्टमेन्ट्स & लीसिंग प्राइवेट लिमिटेड ।
22	27077	नयणशान्ती होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ।
23	27230	फुल मूण प्रोपर्टी प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
24	27285	डेफेनेट फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
25	27302	क्यूबिक मारकेटिंग (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड ।
26	27351	नेल चिट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
27	27412	श्री मधुराम्बीके फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
28	27418	एलील पद्मा चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
29	27489	डैनापावर इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
30	27495	प्लेक्स सरजीटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
31	27507	मल्टी फोकस एक्सपोर्ट्स एण्ड मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
32	27578	वैगै इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड लीसिंग लिमिटेड ।
33	27588	श्री पाण्डियण चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
34	27598	सक्सा स्टाक्स & सेविंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
35	27614	गोल्डन हार्ट एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
36	27621	क्लाम्स पाली-क्रिस्टेल प्रैवेट लिमिटेड ।
37	27625	श्री लक्ष्मीचैदन्या आग्रो फाम्स एण्ड एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
38	27627	आर.आर. आग्रो फाम्स एण्ड एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
39	27639	प्लासेम्स टूरस & ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
40.	27679	विमल आग्रो फाम (तूत्तुकुडी) प्रैवेट लिमिटेड ।
41	27687	सायफ़ लेदर प्रैवेट लिमिटेड ।
42.	27692	श्री देवी अक्षया चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
43.	27727	एस.आर. प्लाश बड् वेल्डींग प्रैवेट लिमिटेड ।
44	27731	श्री सिवानन्दा चिट् फण्ड्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
45	27741	नवरधना फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
46	27748	मण्णारगुडीयम्मा चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
47	27773	श्री प्रशान्त इन्वेस्टमेन्ट फैनान्स एण्ड लीसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
48.	27791	जे.जे. हेल्थ केर सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
49	27794	आल्फा काम्पस सरवीस प्रैवेट लिमिटेड ।
50	27815	लेदर एण्ड लेदर गूट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
51.	27851	चैदन्या वैशनवी कोपियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
52	27855	फिरेन्स मानपावर कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
53	27861	वी.एस.आर. आग्रो फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
54	27868	भागिय महालक्ष्मी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
55	27872	अम्रिता फैनान्शियल सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
56	27879	नेल्लै टेक्सटाइल्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
57	27883	सी क्विण अक्वा कल्चेर प्रैवेट लिमिटेड ।
58	27890	दिव्या गणेश फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
59	27895	अनुप्रिया हौसिंग एण्ड प्रोपरटी डेवलप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
60	27896	इकोसिस सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
61	27907	मल्टीप्रोप्स एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
62	27912	महाजना ट्रेड् क्रेडिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
63	27927	अरवी सिम्प प्रैवेट लिमिटेड ।
64	27937	जीएनआर फैनान्शियल रिसोर्सस प्रैवेट लिमिटेड ।
65	27947	न्युलिनि कास्मेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
66	27949	हारमिणी एक्सप्रेस सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
67	27956	मानावाटी ट्रेडरस प्रैवेट लिमिटेड ।
68	27962	पूर्नालया मेडिकल इक्यूप प्रैवेट लिमिटेड ।
69	27971	श्री अनुमण फार्मा केम प्रैवेट लिमिटेड ।
70	27988	बाम्बण् टूरस & ट्रवल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
71	28009	सुनिप साफ्ट्वेयर कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
72	28013	वानी लता फैनान्स (ट्रे) प्रैवेट लिमिटेड ।
73	28014	भारत कम्प्यूटरस प्रैवेट लिमिटेड ।
74	28015	एससिएनटाबि आग्रो फाम्स & एन्टरटेन्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
75	28018	अमर आठो फोरजिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
76	28031	सूरियण इण्वेस्टमेन्ट & फैनान्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
77	28033	स्टार प्रान्स कल्चेर प्रैवेट लिमिटेड ।
78	28035	श्री वेद्रीवेल फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
79	28068	सुभा मुनाक्षी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
80	28076	यूनिक अक्वा एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
81	28077	राकशैण एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
82	28094	एम.बी.आर. एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
83	28105	मेगालित फेब्रीक एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
84	28113	चक्रा राजा फैनान्स एण्ड इण्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
85	28134	बिल्लीयन्स मारकेटिंग कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
86	28149	पीकोक अडवैसोरिस प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
87	28153	सिएमसि सोफ्टेड् प्रैवेट लिमिटेड ।
88	28178	अक्षया बेकेरस & प्रोसेसरस प्रैवेट लिमिटेड ।
89	28184	ए.के. इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
90	28199	बीएमएन एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
91	28241	भगवधीअम्मण चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
92	28244	हापी स्टे इन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
93	28256	श्री हरीगुरु गारमेन्ट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
94	28270	टीवीके-मेक्सिराय फैनान्स & कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
95	28274	ओयोसिस सीफुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
96	28305	बान्सोय लेदरस प्रैवेट लिमिटेड ।
97	28306	राजी अप्पारेल्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
98	28319	चक्रा राजा रियल एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
99	28328	वेक्कालीअम्मण् चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
100	28343	बोडी श्री लक्ष्मी गणेश चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
101	28344	प्रशान्ती इन्जीनियरिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
102	28352	लिट्टील फ्लेवरस फैनान्स कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
103	28358	इन्डो-फिल एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड ।
104	28359	वीयेण ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
105	28360	मनसे ऐरिकेशन एक्यूपमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
106	28380	कवि फूटवेयरस प्रैवेट लिमिटेड ।
107	28381	कुमरण ट्रेडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
108	28387	जी.के. अक्वा प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
109	28388	बोडी श्री रेंगा आण्डाल चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
110	28392	सदर्ण जेनरल मेरगन्डैस कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
111	28396	नाचू चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
112	28404	श्री अमरप्पन फुड् प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
113	28416	श्री सुक्रा एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
114	28446	डेल्टा चिट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
115	28484	लीरा फैनान्शियल कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
116	28490	जी.पी. क्रेयेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
117	28491	आजकल एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
118	28508	ग्रीन पार्क फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
119	28512	सेन्दील आण्डवर इन्जीनियरिंग & एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
120	28516	ही सी इमेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
121	28517	वी अक्वा फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
122	28536	तमिलनाडु गैस प्रैवेट लिमिटेड ।
123	28539	वेदगिरी विसालक्ष्मी अग्रीकल्चुरल् रिसर्च & डेवलप्मेन्ट कन्सोर्डियम् प्रैवेट लिमिटेड ।
124	28548	माग ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
125	28557	श्री पाक्कीयलक्ष्मी चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
126	28563	प्राभाट् चिट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
127	28571	राधा राणी स्पिन्नरस प्रैवेट लिमिटेड ।
128	28573	प्रार्थना लेदरस प्रैवेट लिमिटेड ।
129	28598	नेर्कूरी सेक्यूरीटीज प्रैवेट लिमिटेड ।
130	28601	मद्रास फैब्रेर प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
131	28603	जेन्नी फुड् प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
132	28610	अरचना'स पाली मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
133	28627	गोल्डण मीडौव्स प्रैवेट लिमिटेड ।
134	28630	अल् अफ्टाब् हाय्योरी प्रैवेट लिमिटेड ।
135	28631	नेल्लै राजेन्दीरा फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
136	28637	सीबीएम एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
137	28640	कोको-लैम प्लानटेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
138	28660	एसबिआर फैन केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
139	28661	लिप्पो मरैन प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
140	28685	लैफ़गॉड मेडिकल डैक्नास्टिक सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड ।
141	28699	जीएणआर एक्सिम प्रैवेट लिमिटेड ।
142	28700	मेरलिन प्लेसमेन्ट सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
143	28701	एक्सेल शिप्पिंग एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड ।
144	28728	मार्स कास्टिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
145	28745	शिवलोग प्रिन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
146	28764	सी-टेक इलक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
147	29012	वेरज़ फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
148	29022	वीणस फारमा प्रैवेट लिमिटेड ।
149	29062	वी.ए.टी. अक्वा फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
150	29067	नेलफीन आग्रो प्रोडक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
151	29068	एस्सार सेक्युरीटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
152	29069	जे जे सूपर सिमेन्ट्स (अरियलूर) प्रैवेट लिमिटेड ।
153	29094	एमएससी एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
154	29100	मीमॉस प्लास्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
155	29101	हक्मा सीफुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
156	29103	एवर बेस्ट फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
157	29111	केजेएम अक्वा हट्चेरी प्रैवेट लिमिटेड ।
158	29123	ब्लू सी मरैन सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
159	29124	सूपर डूंपर टीवी प्रैवेट लिमिटेड ।
160	29157	विनायगा हौसिंग & प्लान्टेशन कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
161	29194	योगी इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
162	29197	श्री उष्पीली चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
163	29199	बोसेस इन्टिग्रेटेड फाम् प्रैवेट लिमिटेड ।
164	29213	वीजया एमआरए प्रैवेट लिमिटेड ।
165	29214	पाथ फैन्डर फैनान्शियल सरवीसस (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
166	29215	औरा मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
167	29227	चिप्लेस इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
168	29232	जी.के.एलपीजी कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
169	29234	डीप्टी कोयर इन्डस्ट्रीरीस प्रैवेट लिमिटेड ।
170	29239	सिटीज़न्स टीम (काण्ट्राक्टर्स & रियल एस्टेट) प्रैवेट लिमिटेड ।
171	29254	रोल आण इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
172	29319	रधनम् फेब्रीक्स एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
173	29321	स्कैलैण फैनान्स एण्ड इण्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
174	29327	आरगस ग्राफिक्स विशण प्रैवेट लिमिटेड ।
175	29344	जेन पॉवर इलक्ट्रॉनिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
176	29346	फेशेण् वाशिंग प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
177	29348	ज्योती अक्टक इन्डस्ट्रीरीस प्रैवेट लिमिटेड ।
178	29378	हवर लेडीस पप्लीशेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
179	29388	बुल्वीस फैनान्स & एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
180	29408	रेणुका इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
181	29428	एम.के.फाम्स & रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
182	29429	सुभत्रा फैनान्स एण्ड क्रेडिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
183	29435	सरस्वती क्रेडिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
184	29448	इन्जीनियरिंग एक्स्प्लेन्ट वोरक्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
185	29451	जे.एस. हेरिटेज रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
186	29475	अलकप्पा फैनान्शियल सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
187	29477	शारोन फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
188	29497	अधिद्या काम्पोनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
189	29498	अकाश कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
190	29514	पट्नम केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
191	29521	होशिया इम्पोर्ट & एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
192	29543	क्लारिन्स सोप्स प्रैवेट लिमिटेड ।
193	29544	अनु बिल्डेरस प्रैवेट लिमिटेड ।
194	29591	लियो होडिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
195	29594	एआरएस गारमेन्ट्स लिमिटेड ।
196	29596	श्री सक्ती सेक्यूरिटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
197	29619	ट्रान्सलंगा टूरस एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
198	29621	एस.पी.एस. मिनरल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
199	29628	श्री सैला अक्वा फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
200	29629	अली & अली आल इण्डिया ट्रान्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
201	29641	एस एस हेरबल प्रोडक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
202	29646	जेन्टिलमेन लाट्ट्री एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड ।
203	29648	मन्नै टी.एम.आर. चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
204	29667	वी.एन. अक्वा फुड्स लिमिटेड ।
205	29693	सौराम फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
206	29721	एसपीएम होटेल्स एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
207	29819	अट्टालया फैनान्स & सेक्यूरिटीस प्राैवेट लिमिटेड ।
208	29833	पेरलसिटी सिनीमा कम्पनी प्राैवेट लिमिटेड ।
209	29866	अल् फट्टा ट्रावल्स प्राैवेट लिमिटेड ।
210	29876	एवरशैन शिपिंग एजेन्सी प्राैवेट लिमिटेड ।
211	29879	पेरियवर फैनान्स एण्ड लीसिंग प्राैवेट लिमिटेड ।
212	29933	प्रिन्यू मल्टी मीडिया प्राैवेट लिमिटेड ।
213	29940	मिरलिन स्टाक एण्ड शेयरस प्राैवेट लिमिटेड ।
214	29972	मोनामी एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिटेड ।
215	29973	इन्डेक्स फैनान्शियल सर्वीसस प्राैवेट लिमिटेड ।
216	29998	बुल मारकु इण्वेस्टमेन्ट्स प्राैवेट लिमिटेड ।
217	32990	श्रीवारी प्लास्टीक्स प्राैवेट लिमिटेड ।
218	35020	ऐंजीजीऐ होमटेल्स लिमिटेड ।
219	35032	मा कानटाक्ट क्लब प्राैवेट लिमिटेड ।
220	35039	धन्वन्त्री मेडिकल रिसर्च इन्सटीट्यूट लिमिटेड ।
221	35041	वीटेक फार्मा प्राैवेट लिमिटेड ।
222	35092	राकेश मारकेटिंग प्राैवेट लिमिटेड ।
223	35093	प्रिल कोरियर्स प्राैवेट लिमिटेड ।
224	35100	सुरेश फैनान्शियल सर्वीसस प्राैवेट लिमिटेड ।
225	35113	जी एस पी फुड्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिटेड ।
226	35115	वारियर आयूरवेदिक नर्सिंग होम् प्राैवेट लिमिटेड ।
227	35118	औरविन्द ओक्सिजेन कम्पनी प्राैवेट लिमिटेड ।
228	35127	जूम विशण प्राैवेट लिमिटेड ।
229	35134	वाण् स्टाक्स एण्ड इण्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ।
230	35141	हाक इन्जीन्स प्राैवेट लिमिटेड ।
231	35169	तिरुमुरुगा कड्मत्तूर फेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
232	35177	ट्रास टेली नैटवोक्स लिमिटेड ।
233	35182	एन्नारै रिब्वण्स प्राैवेट लिमिटेड ।
234	35183	प्रोट्रिप इन्जीनियरिंग प्राैवेट लिमिटेड ।
235	35197	सदीश गोट् गीफ्ट (टीक) प्राैवेट लिमिटेड ।
236	35200	मीनाम्बिका फैनान्स लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
237	35205	जे पी वी पेप्परस & बोर्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
238	35206	राकविण एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
239	35212	वेट्रीवेल फेनिफिट फण्ड्ट लिमिटेड ।
240	35225	ई.एस. केरियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
241	35231	भाइरव् सीफुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
242	35240	ग्रोमेक्स इण्वेस्टमेन्ट क्रिडेत्स प्रैवेट लिमिटेड ।
243	35244	यगुवना फैनान्स लिमिटेड ।
244	35248	पीक् कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
245	35250	मद्रास रेसिनो प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
246	35262	जीयेस अक्वा कल्चेर प्रैवेट लिमिटेड ।
247	35271	कादी मरैन फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
248	35287	कान्गोर्ड रोडवेस प्रैवेट लिमिटेड ।
249	35291	लोगालया फेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
250	35308	शिव सक्ति मशीन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
251	35309	बोकाडिया पालीटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
252	35310	छिरैया मेटल्स & पालिमर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
253	35327	ग्रीन्वे चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
254	35330	मिनाक्षी इण्वेस्टमेन्ट सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
255	35341	कुरुण्जी प्लान्टेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
256	35375	श्री वेंकटलक्ष्मी डैयरी फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
257	35384	जेय् सण डैमण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
258	35386	श्री सायराम किराप्स प्रैवेट लिमिटेड ।
259	35395	है-टेक पाँवर लाण्डिरि प्रैवेट लिमिटेड ।
260	35400	श्री कमलेश अग्री डेवलप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
261	35406	विशण कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड ।
262	35408	मानसरोवर फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
263	35439	ग्राफिक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
264	35444	मूर्ति फारमा ट्रेटरस प्रैवेट लिमिटेड ।
265	35448	जेएम फेर्न एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
266	35465	वीएक्सएल चिट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
267	35475	अडोनिश अप्पारेल्स एण्ड मेरगन्डैस प्रैवेट लिमिटेड ।
268	35500	सेवेन्त सेन्ससाफ्ट्वेयर एण्ड सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
279	35501	है ट्रिम डेक्कारस प्रैवेट लिमिटेड ।
270	35511	हिल पार्क ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
271	35517	राज आठो फैनान्स (मदुरै) प्रैवेट लिमिटेड ।
272	35523	इन्टेक पाँवर यूटिलिटीस (इण्डिया) लिमिटेड ।
273	35530	आर.ए.आर.पी. चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
274	35531	पासन फुरुट गार्डन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
275	35534	फेस कण्सल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
276	35535	वी वी ट्रेट लिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
277	35540	आप्पिल फिलिम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
278	35552	विजयरत्ना फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
279	35568	केल्लीस चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
280	35569	श्री मीरा ग्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
281	35589	न्यू गोल्डन रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
282	35590	तिरुवीक्रामन चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
283	35593	के.टी.एन. सी फूड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
284	35595	दिपक बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
285	35700	गुड् शीफ्हेरड गोड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
286	35708	सरवणा आगो प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
287	35735	सूरया फौन्डेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
288	35758	रासी एनरजी सिस्टेम्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
289	35778	कासगो फुड् एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
290	35779	मयूरा टूरस एण्ड ट्रावल्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
291	35780	आरटी एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
292	35784	बोम्माडेक आगो प्रैवेट लिमिटेड ।
293	35795	होटल कोडै ब्रिजिज प्रैवेट लिमिटेड ।
294	35797	बेस्ट बान्ड वेल्लिंग राड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
295	35808	वजरा राक प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
296	35810	सऊद इण्डिया पेन्शनरस प्रोटेक्शन फण्ड लिमिटेड ।
297	35814	सिनियर सिटीजन्स सास्वदा सहाया फण्ड लिमिटेड ।
298	35823	कारतिक क्वारिस प्रैवेट लिमिटेड ।
299	35830	एन्कार चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
300	35836	केया मारकेटिंग (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
301	35843	जेन्स्टार पाँवर इण्डिया लिमिटेड ।
302	35855	स्नोबाल कम्प्यूटरस प्रैवेट लिमिटेड ।
303	35856	पीसी टेक (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
304	35861	नेल्सन क्लब्स & रिसोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
305	35869	उन्गल चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
306	35879	सौहारडा सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
307	35889	छास फरनिचर्स सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
308	35901	सुमुक्ता प्रोपर्टीस प्रैवेट लिमिटेड ।
309	35906	प्रभा होम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
310	35912	फौसिया कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
311	35918	वसन्ता भूमि प्रोमोटेरस प्रैवेट लिमिटेड ।
312	35937	महा एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
313	35946	पुष्पा चिट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
314	35947	एमसी कारते कोल्ड स्टोरेज प्रैवेट लिमिटेड ।
315	35948	एल्. सक्काराम् टेक्सटैल् प्रैवेट लिमिटेड ।
316	35968	अमोका होल्डींग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
317	35970	ए टी लेदर & केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
318	35976	जेएमके रिसोर्ट्स एण्ड प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
319	35981	हिक्मा मेडिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
320	35989	श्री दुरगा केप्स प्रैवेट लिमिटेड ।
321	35997	इन-टून एन्टरटेनमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
322	36002	अरुण हियर फरचेर्स & लिसिंग (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
323	36007	सुप्रिया सस्पेन्शन् प्रोडक्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
324	36009	नवरधीना लिसिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
325	36014	श्री आडी भगवधी फैनान्स & इन्वेस्ट्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
326	36017	राजविजेय प्रोपर्टीस & इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
327	36025	गणेश डेयरी फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
328	36029	शोलिंगार लिक्विडाक कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
329	36032	उदयम् फौन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
330	36042	रिच्चीस & क्लीफ अडवरडैसिंग एण्ड कम्प्युनिकेशनस लिमिटेड
331	36047	न्यू-प्रो फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
332	36054	विकट्री चिट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
333	36061	बालमँगलम् फैनान्स & इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
334	36062	यन्त्रा ग्राफिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
335	36064	अरुनेश फेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
336	36067	टान्जेन्ट मारकेटिंग नेटवर्क प्रैवेट लिमिटेड ।
337	36079	जी.सी.पी. क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
338	36080	कल्वीन होम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
339	36081	पी एन के ट्रेड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
340	36084	वानगार्ड पॉवर प्रैवेट लिमिटेड ।
341	36088	क्लासिक मिल्क फुड लिमिटेड ।
342	36089	एस.एस. इक्वीटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
343	36090	नोविना फुड्स एण्ड प्रोटीन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
344	36092	अय्या तुनै पाडी बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
345	36099	वीएसएम फ्लोरी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
346	36120	सोलिटी भात्रा कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
347	36121	मेक्सवेल अमुरसेस & ग्रीन लाण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
348	36123	सोलिटी भात्रा पालीमेरर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
349	36133	श्री विक्काम् चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
350	36137	जुवल मोनार्क प्रैवेट लिमिटेड ।
351	36151	ओशनिस रिसार्ट्स मद्रास प्रैवेट लिमिटेड ।
352	36153	ज्ञानम् बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
353	36156	मेरक्यूरी इन्फरमेशन सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
354	36172	देवनेसन फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
355	36176	अनुदम् फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
356	36179	मुत्तुराज चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
357	36180	ब्रिरिज़ चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
358	36185	टोनि अडवरडैसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
359	36190	गुम्भा स्टाक्स & बान्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
360	36198	कोरिन प्लास्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
361	36201	सपानी फिन्लीस लिमिटेड ।
362	36203	अनिदा टूलिंग & काम्बौनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
363	36204	श्रीराज मिनरल्स & ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
364	36205	अटाप्ट अडवरडैसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
365	36209	नोटिना प्रेस लिमिटेड ।
366	36223	सण एस्टेट (कोडै) प्रैवेट लिमिटेड ।
367	36224	हेलन-रुबन हार्टिकल्चेर्स कण्ट्री क्लब लिमिटेड ।
368	36225	न्यू-एड पब्लिकेशन्स & कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड ।
369	36230	श्रीनिवास प्रोमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
370	36236	तिचुरीचू फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
371	36245	मेक्त्वोरड टयूनशिप सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
372	36255	सुमोलेक्सपैप्स प्रैवेट लिमिटेड ।
373	36271	वी.एल.बी.चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
374	36280	लक्ष्मी कलर क्रेयान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
375	36285	चेक-इन ट्रावल्स एण्ड टूरस प्रैवेट लिमिटेड ।
376	36289	लोटस रोडवेस लिमिटेड ।
377	36305	करगगा विनायगर एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
378	36313	कोडै टेम्पिल टवर फाम्स & रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
379	36330	टारुस इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड ।
380	36331	बी.सी.सी.हौसिंग फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
381	36338	जूरीच एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
382	36345	एबीडी ट्रेड लिग्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
383	36349	फिनामान होल्डिंग लिमिटेड ।
384	36362	वेलनगत्रि रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
385	36365	मापेक्स फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
386	36367	मँगलम फौन्डेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
387	36380	सदर्ण प्रोडैक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
388	36389	होरिजान एंटीएल लिमिटेड ।
389	36393	कदिरवण होटल्स एण्ड, रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
390	36396	एस.एस.वी. केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
391	36397	फाब् लेदर गारमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
392	36401	ग्राफ्ट आफ्रिस सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
393	36403	नयनम् चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
394	36407	ग्रिन्स ग्रीन्लाण्ड फाम्स एण्ड रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
395	36415	जेनिद रायल एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
396	36451	लैफ्टरस्ट आरचेड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
397	36457	अद्विया साय देव एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
398	36462	एन्जल टेक्सटैल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
399	36466	क्लासिक कार्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
400	36473	एबिल बल्क मेलर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
401	36477	जे.टी.एच.स्टील & वैयर प्रोडैक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
402	36483	श्री बालाजी प्रोसेस (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
403	36488	कारसेन्टर फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
404	36491	श्री कृष्णा प्रोपर्टीस मद्रास प्रैवेट लिमिटेड ।
405	36494	सेवण हिल्स पिक्चर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
406	36505	पी.आर.के. इन्जीनियरींग प्रैवेट लिमिटेड ।
407	36509	माक्सफेलक्स रब्रर प्रैवेट लिमिटेड ।
408	36534	मद्रास सोलार अग्रो प्लान्टेशनस प्रैवेट लिमिटेड ।
409	36538	ग्रिस एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
410	36539	डलवाई रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
411	36544	धानुशिका बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
412	36555	पन्छवरनेश्वरा कणस्थूमर सरवीसेस & शापिंग नेटवर्क प्रैवेट लिमिटेड ।
413	36558	वेदा नायगम् फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
414	36576	तायम्मा चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
415	36577	खोर पयो प्रोडैक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
416	36578	वैशानवी फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
417	36580	ज्ञानराज रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
418	36589	मोहिडीन् एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
419	36596	अरिवहम् चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
420	36600	रोड्मास्टर एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड ।
421	36601	श्री प्रिन्दावण स्टील रोलिंग मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
422	36605	होटल हालीडे इण्डिया लिमिटेड ।
423	36613	बालिन्ड कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
424	36628	निज़ाम एजेन्सिस & डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
425	36631	श्री गुरु दियेटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
426	36636	वी.जे.एस. इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
427	36638	आनेक है-टेक इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
428	36651	वी.के.आर. रियल एस्टेट प्रैवेट लिमिटेड ।
429	36656	वसन्दी राम बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
430	36659	करोल लेदरस प्रैवेट लिमिटेड ।
431	36666	मेसी एक्सपोर्ट & इम्पोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
432	36672	मेडिटेक्स हियुमण रिसोर्सस लिमिटेड ।
433	36696	एम.डी.वी. टेक्नोलाजिस प्रैवेट लिमिटेड ।
434	36701	इन्डोरमेड लबोर्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड ।
435	36703	मेगास्टोन शेल्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
436	36704	वामशीडार कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
437	36713	माफ़स हौसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
438	36715	ग्रोम् एन्टरटेनमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
439	36716	पुष्पम स्पिन्निंग मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
440	36729	हाडौस कण्ट्रि क्लब प्रैवेट लिमिटेड ।
441	36735	कयेम निटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
442	36742	श्री हयग्रीवा बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
443	36743	तिल्लै सुरा चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
444	36747	कानी इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
445	36754	बालास इन्फरमेटिक् कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
446	36757	वृक्षा सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
447	36764	वृक्षा कार्स लिमिटेड ।
448	36768	शैण केमिकेल्स प्राइवेट लिमिटेड ।
449	36782	अभिनेश फैनान्स & इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड ।
450	36785	देवसेना डेवलप्पर्स & एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड ।
451	36791	केवल एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड ।
452	36803	माधुनिका फैनान्स & इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
453	36804	होटीमास फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड ।
454	36807	मलर फैनान्शियल कण्सल्टेन्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड ।
455	36813	नोवा बिल्डर्स & प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
456	36815	उपाला प्रोपर्टीस & इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
457	36822	के.ए. सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
458	36823	एन्मार्क बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
459	36830	प्रियंका मेर्चन्ट फैनान्सिंग लिमिटेड ।
460	36832	कोडै गेट् रिसार्च होटल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
461	36838	बेसट सेक्युरिटी सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड ।
462	36849	एक्सल एक्सप्रेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ।
463	36852	इणिमै होम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ।
464	36857	श्रीत्वारकमै प्रोपर्टीस (इण्डिया) लिमिटेड ।
465	36859	श्रीरुगेरी शारदा फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड ।
466	36862	स्काड्स न्यूगलस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
467	36874	मद्रास क्लासिक इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
468	36877	एस्हान होल्डींग लिमिटेड ।
469	36879	लेवीन पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
470	36906	मेकफेब इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ।
471	36910	शकीला शिपिंग गार्को सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड ।
472	36915	साऊद इण्डियन रियल एस्टेट कम्पनी (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड ।
473	36919	नेड्डाल प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड ।
474	36923	टीजीटी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
475	36927	ओएसिस गोल्ड फाम्स प्राइवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
476	36934	इण्वेस्टमेन्ट एन्टरप्राइस इण्डिया लिमिटेड ।
477	36935	श्री एनटीएन चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
478	36955	डिजीटल माजिक मल्टीमीडिया सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
479	36957	अमिटी रब्लर मोल्टिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
480	36974	जेयमंगला आग्रो फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
481	36975	सिलाट्टूर श्री राम आग्रो फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
482	36984	उन्डीयल आग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ।
483	36985	एम के होल्लिंग्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
484	36989	राजगोकिल कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
485	36991	इम्बीरियल गोल्ड हौस प्रैवेट लिमिटेड ।
486	36994	कोडै गायत्रि प्रोपरटी डेवलप्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
487	37002	सिनरियो साफ्टवेयर प्रैवेट लिमिटेड ।
488	37003	एम.टी.कण्णन् हरी आग्रो फाम् प्रैवेट लिमिटेड ।
489	37004	सीब्लू नेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
490	37005	बारिद्रा एण्ड हसिट लबोरटोरिस प्रैवेट लिमिटेड ।
491	37013	इण्डाण्ड मेनफोरसेस & बिसिनेस सर्वीस प्रैवेट लिमिटेड ।
492	37015	माशा ग्रानैट्स & मिनरल् एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
493	37017	प्यूरजेन्टा जुवल ग्रेस्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
494	37019	महारात इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
495	37020	श्री मीनाक्षी फाम्स एण्ड रिसार्च प्रैवेट लिमिटेड ।
496	37032	अन्श कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
497	37036	चेरण सैण्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
498	37041	शारदा इस्टीट्यूट आफ मार्केटिंग मैनेजमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
499	37047	तिरुमुरुगा चिट फण्ड्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
500	37055	वैजेयन्दी फैन अप्परेल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
501	37057	गोल्डन हारवेस्ट आग्रोफाम् (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
502	37059	सुभलक्ष्मी इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड ।
503	37075	अग्नी-एलवीएम इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
504	37076	श्री मीनाक्षीसुन्दरम् मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
505	37077	शंराज आग्रो फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
506	37084	मेलियार एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
507	37086	सीन सीजुरेस एण्ड वेर हौसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
508	37088	नशान एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
509	37091	सेईन्ट मैगेल फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
510	37098	सौउदहेवण प्रोपरटी डेवलपर्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
511	37099	राकवेर एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
512	37137	डैना काम्प इन्फरमेशन् टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
513	37138	चेन्नै एस्टेट्स & कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
514	37143	फ्लेयर ट्रेटरस प्रैवेट लिमिटेड ।
515	37147	इफ़िल फैनान्स लिमिटेड ।
516	37157	वसन्तवना फ़ार्म इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
517	37158	फ्लैवोल्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
518	37166	जेया श्री फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
519	37172	आर्कटिक एयर इन्जीनियर्स & काण्ट्राक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
520	37173	सुवा धर्मा चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
521	37176	वीटल केर प्रैवेट लिमिटेड ।
522	37179	सप्तरीशि इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
523	37185	वीएसटी फैनान्शियल सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
524	37186	लोकस क्लासिकस एवियेशेण् प्रैवेट लिमिटेड ।
525	37192	नवकार आग्री & रिसोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
526	37197	राजाली बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।
527	37214	यूसीएफ़एस कारगो (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
528	37237	कोयाटेस टेक्सटाइल्स मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
529	37238	वीवा पास्कर एन्टरप्राइसस (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड ।
530	37274	आदीरै चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
531	37286	ओरिजन कण्ट्रोल सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
532	37297	रिच् हारचेरड्स एण्ड प्लानडेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
533	37315	चेन्नै कुरियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
534	37343	देवसन प्लानडेशन्स एण्ड डेवलपर्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
535	37346	सरवणा (चितम्बरम) बेनिफिट फण्ड लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
536	37373	के.एम.सिल्क एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
537	37391	विश्वाराज चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
538	37401	कोकनसेन्टी फिन् सर्व प्रैवेट लिमिटेड ।
539	37419	प्रिचेल ट्रान्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
540	37421	माना वीरा वळ नाडु बेनिफिट फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
541	37427	टौरस मेडि सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
542	37446	डैनास्टी फौन्डेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
543	37480	क्रिया फिन्लीस प्रैवेट लिमिटेड ।
544	37483	एटीआर फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
545	37489	मिनाक्षी रियलटर्स & प्रोपरटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
546	37493	रोमल (इण्डिया) लिमिटेड ।
547	37500	जेय प्रोपरटी डेवलप्परस प्रैवेट लिमिटेड ।
548	37502	धरुण शापिंग नेटवोक प्रैवेट लिमिटेड ।
549	37504	रेहना सीफुड्स एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
550	37516	विक्ट्री बेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
551	37520	अण्णै प्लास्टिक प्रैवेट लिमिटेड ।
552	37521	विगनेशवरा रोलर फ्लोर मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
553	37523	सोलार शेड नेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
554	37527	प्रजा इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
555	37528	जे.वी.एम. कण्टैनर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
556	37534	डैनामिक फब्रोटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
557	37535	बाबुराज बिल्डर्स एण्ड कण्ट्राक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
558	37540	पीक्काडिल्ली क्लब & रिसार्ट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
559	37546	केएमआर ऐक्सिम प्रैवेट लिमिटेड ।
560	37553	मेगनिफिसेन्ट शिट् मेटल् प्रैवेट लिमिटेड ।
561	37561	चेन्नै केमटेक वाटर प्रुफिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
562	37574	डेकोरटीव क्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
563	37578	द गॅमलर फिल्म प्रैवेट लिमिटेड
564	37595	ए & ए ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
565	37600	एस & सी कियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
566	37608	युव भारती कणसल्टेन्सी सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
567	37628	ईश्वर कम्प्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
568	37644	चिणपेट् पालीमेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
569	37651	साक् फुड् प्रोडक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
570	37671	इण्डो-अमेरिकण एन्वारन्मेन्टल मेनेजमेन्ट प्रैवेट लिमिटेड ।
571	37672	ग्रिह लक्ष्मी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
572	37694	अय्यनार प्लान्डेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
573	37703	एन.पी.आर. इन्जीनियर्स एण्ड फेब्रीकेटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
574	37704	श्री भूमादेवी चिट् प्रैवेट लिमिटेड ।
575	37706	सण स्वीट् होम्स (मदुरै) प्रैवेट लिमिटेड ।
576	37720	सिद्धार्द हेयर-परचेस प्रैवेट लिमिटेड ।
577	37777	आरदी इम्पेक्स (इण्डिया) लिमिटेड ।
578	37779	भगवदी होम्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
579	37784	ट्रेमेन्डस फिन्लीस प्रैवेट लिमिटेड ।
580	37798	विस.ए.विस अड्वान्सुड अड्वेरेटसेर्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
581	37831	उदयम् कुरियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
582	37835	रेजेन्सी स्कोयर एक्सपोर्ट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
583	37836	फेर डील फोरेक्स सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
584	37854	श्री कमला जेनरल ट्रेटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
585	37867	ओस्बोरनी केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
586	37877	आल्वार क्रिडिट् फैनान्स इण्डिया लिमिटेड ।
587	37881	एस.जे.गारमेन्ट्स एक्सपोर्ट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
588	37890	इन्फोलाब्स साफ्टवेर लिमिटेड ।
589	37893	आशिर्वाद फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
590	37899	मदर मीरा इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
591	37900	निवास कम्प्यूटर्स ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट प्रैवेट लिमिटेड ।
592	37915	मदर एयर्द फाम्स & एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
593	37916	बराकद टूरस & ट्रावल्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड
594	37917	डीपहोल ड्रिल्लींग सिस्टेम्स एण्ड टूल्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
595	37919	पानुम् मानपावर & एक्सपोरट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
596	37924	ससुकी आग्री फाम्स & रिसारट्स लिमिटेड ।
597	37941	एसेस एक्सपोरट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
598	37953	सण-क्लो एक्सप्रेस कुरियर् प्रैवेट लिमिटेड ।
599	37954	जी.एस.एस.फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
600	37958	एरियस रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
601	37960	आरजे & आर पाँवर अप्पेलन्सेस प्रैवेट लिमिटेड ।
602	37969	जी.पी.आर. मेनेज़मेन्ट् सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
603	37978	स्कै सी कम्प्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
604	37992	हरी ब्रिक प्रैवेट लिमिटेड ।
605	37993	एबीनेजर काल्सियम् प्रैवेट लिमिटेड ।
606	38006	लक्ष्मी मणीग्रो इण्डिया लिमिटेड ।
607	38020	फ्रील्ड पार्ट इलक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
608	38031	अनुगा फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
609	38070	जे.आर.अग्रीकल्चुरल & इन्जीनियरिंग प्रजेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
610	38074	जेन्बिा फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड
611	38084	सूरिय गन्गै चिट्स मद्रास प्रैवेट लिमिटेड ।
612	38088	अमेसा ट्रावल सरवीसस (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
613	38095	सित्वास आग्रीटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
614	38100	श्री गुरु लक्ष्मी फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
615	38102	लेना ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
616	38106	पुदुक्कोट्टै श्री सुभ मगॅला चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
617	38111	सुक्रा बिल्डटेक इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
618	38113	मारुती इन्फोटेक & मेनेज़मेन्ट् सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
619	38117	ऐडीयल छीक मीट् पेक्कर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
620	38133	अस्ट्रा लेदर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
621	38142	कटरकरै चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
622	38162	बेदाल इन्टरनेशनल लीसिंग एण्ड फैनान्सिंग सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
623	38163	तिरुनेल्वेली आग्री डेवलप्मेन्ट् सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड
624	38167	चेन्नै कृष्णा कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
625	38177	रार प्रोमोटेर्स एण्ड डेवलप्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
626	38179	सुपर मरैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
627	38185	अरिवालथा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
628	38193	कालण्डी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
629	38195	हीट्मेक आटोमोटीव प्राइवेट लिमिटेड ।
630	38201	विजयबानु एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
631	38223	अरचना एन्टरप्राइस (देनी) प्राइवेट लिमिटेड ।
632	38225	इरशा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
633	38227	श्री मारुती एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड ।
634	38253	तारा स्टार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
635	38265	बिजण फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड ।
636	38273	पी.डी.मदाई मिल्क & डैयरी प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड ।
637	38279	हेणराक एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड ।
638	38282	एम.एम.क्लबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ।
639	38285	लॉयल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
640	38295	सुकी इन्व्हेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
641	38297	फोर्टी इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
642	38320	कौरी पदम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
643	38346	हाट-लैण मारकेटिंग (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड ।
644	38347	डोराईटो टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड ।
645	38359	है-टेक मेटलवेर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ।
646	38362	श्री जेयागणपती चिट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
647	38363	फिशन्स डेटा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ।
648	38380	सास्ता मिनरल् वाटर प्राइवेट लिमिटेड ।
649	38387	विष्णो हैड्रालिक इन्व्हेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।
650	38403	वी.डी.आर. फुड्स प्राइवेट लिमिटेड ।
651	38411	डिप्लोमाट कण्ट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड ।
652	38417	शान्जो केटेरेर प्राइवेट लिमिटेड ।
653	38418	बाम्बिनो लेख विव् पार्क होटल एण्ड रिसार्च (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
654	38422	टाब एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
655	38425	फ्रान्तीयर फेब्रिक एक्सपोर्ट्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
656	38426	सौउद् इण्डिया गोल्फ अडवेन्चेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
657	38427	ओलिम्बिक टूरस & ट्रावल्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
658	38428	स्वरन भूमि चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
659	38430	पीगासेस इन्फोटेक सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
660	38431	अक्यूटि मारकेटिंग सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
661	38433	बीएसआर.वीएमएनके फैनान्स & इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
662	38437	वेन्कटरमणा कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
663	38444	पेत्तु पाली पैप्स प्रैवेट लिमिटेड ।
664	38445	पोन अरूवी फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
665	38458	वी जी ऐ (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
666	38460	क्वालिटी खोल प्रैवेट लिमिटेड ।
667	38477	जेईन्ट ग्रिश्यर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
668	38483	एस.पी.जे. एयर ट्रावल एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
669	38497	राजीव फौन्डेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
670	38500	एम.एन.के. रबर्स प्रैवेट लिमिटेड
671	38509	विप्पीयार टेक्नोलाजीस इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
672	38510	टेक्नोसाफ्ट सिस्टेम्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
673	38526	काली सिस्टेम्स इन्जीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड ।
674	38535	केमसेर्व आठोमेशन प्रैवेट लिमिटेड ।
675	38552	अण्बुकावेरी प्रोमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
676	38554	जेयश्री चिट्स (कन्याकुमारी) प्रैवेट लिमिटेड ।
677	38611	क्रियेटीव बिसिनेस सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
678	38618	यूका एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।
679	38632	सण बीम् अग्री-टेक फाम् & रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
680	38633	सिधी मसाला प्रैवेट लिमिटेड ।
681	38646	विप्पीयार ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
682	38648	सीमा ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
683	38651	सुजाना होटल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
684	38667	द्विवीडर फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
685	38671	वेब इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
686	38672	ए.आर. काफ़ी प्रैवेट लिमिटेड ।
687	38673	खोस्टेर्स हिन्ड अडवरडैसिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
688	38685	रोलाण्ड प्रोपरटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
689	38686	आरसीएस केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
690	38689	टाप नाच् मारकेटिंग एण्ड कणसल्टेन्सी सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
691	38702	वी.के.आर. मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
692	38704	महारात मरैन प्रैवेट लिमिटेड ।
693	38705	वर्दमान कण्डक्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
694	38724	हाप्पी होम कणस्ट्रक्शन्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
695	38728	इन्दरा स्टोन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
696	38740	एपीएम टूरस एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
697	38742	मैक्रोटेक इन्डस्ट्रीस (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
698	38752	बोरा टेक्सटैल मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
699	38753	श्री आण्डाल टाब्लेस प्रैवेट लिमिटेड ।
700	38759	अलैस & चारलेस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
701	38763	चेन्नै मल्टीट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
702	38764	नटराज एण्ड सुप्रीया शैयर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
703	38774	ट्रूम चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
704	38782	सेफ़लेक काम्पोनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
705	38787	डीजीएम एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
706	38789	वीएमआर एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
707	38793	फेरवे & कम्पनी (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
708	38794	हरण स पेरफ़क्ट मेटिचिंग्स प्रैवेट लिमिटेड ।
709	38795	ओप्पीली है-टेक इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
710	38803	लक्सेर इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
711	38804	आल सिसण्स टूरस & ट्रावल्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
712	38811	सात्तूर श्री सेल्वमुरुगण् चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
713	38814	बाम्बण बाबा हौसिंग फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
714	38815	जीपी इण्ड-यूरो इन्टरनेशनल कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
715	38822	नदाशा चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड ।
716	38828	निट्टी ट्रावल्स एण्ड ट्रेड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
717	38838	उद्दमपालयम् श्री गुरुदेव चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
718	38842	डीप्पीका डैयरी मिल्क प्रैवेट लिमिटेड ।
719	38877	अरुमै अप्पातगम् एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।
720	38886	सौरुद एशियण ट्रेड प्रैवेट लिमिटेड ।
721	38890	ट्रेशियरलिग् टैम् शेयर्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड
722	38896	सिंगार दोट्टम् फाम्स एण्ड रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
723	38898	नन्दीनी फरवच ओवरसीस सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
724	38901	श्री वारी गृहसेवा प्रैवेट लिमिटेड ।
725	38904	श्री देवप्रियण एयर्द मुवर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
726	38912	गानक्यूर एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
727	38921	एस.पी.जे. सण शिप्पिंग & क्लीयरिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
728	38922	साय विणयगा ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
729	38926	टेलीफील्ड सरवीसस (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
730	38934	सण पॉवर सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
731	38937	एवीटी फोरेक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
732	38955	श्वेदालक्ष्मी एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
733	38957	गुडलक अफ्रेसिक्स चेन्नै प्रैवेट लिमिटेड ।
734	38968	निसाक मेग्नेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
735	38972	लोटस अलोइस प्रैवेट लिमिटेड ।
736	38973	रोही इन्वेस्टमेन्ट्स & सेक्यूरिटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
737	38981	एक्सेलेन्ट ट्रेडिंग (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड ।
738	38983	अलेरट् टेक्नोलाजीस इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
739	38986	डी.के.& सन्स सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
740	38987	कोर्नर स्टोन एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।
741	38988	सागी होम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
742	38993	मदुरै मीनक्षी हेरिटेज पार्क्स प्रैवेट लिमिटेड ।
743	38994	श्रीरामदेव मानुफेक्चरिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
744	38998	डपपोडिल्स एस्टेट्स & रिसारट्स (कोडैकानल) प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
745	39000	टापलैण एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
746	39007	फोरचूण होम्स इण्डिया लिमिटेड ।
747	39015	जेवीएस ट्रावल्स & टूरस प्रैवेट लिमिटेड ।
748	39021	सिंगा प्रोपर्टी डेवलपर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
749	39022	बिक्कासा इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
750	39034	एसवीएन कम्प्यूटर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
751	39035	इण्मा इलक्ट्रॉनिक्स मानुफेक्चरर्स प्रैवेट लिमिटेड
752	39064	शबरी फाटो कणसोर्टियम् प्रैवेट लिमिटेड ।
753	39069	यूटीलिटी फुड्स एण्ड फेसिलिटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
754	39072	वी.के. टूल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
755	39109	अरूणा स्ट्रक्चरल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
756	39113	इलीसियम् थेरापेटीक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
757	39118	मेडीकेर टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
758	39121	सिस्टेक कणसल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
759	39130	बेर्ग एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
760	39132	अरूणमदि चिट्स प्रैवेट लिमिटेड
761	39133	विष्णीयार मेटल फोरजींग प्रैवेट लिमिटेड ।
762	39142	इलक्कीया फुड्स प्रैवेट लिमिटेड ।
763	39143	पीएमएस मैन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
764	39147	जेरी टेक प्रैवेट लिमिटेड ।
765	39159	सूर्या फैनान्स (सिश्कासी) प्रैवेट लिमिटेड ।
766	39168	टी.आर.बी. एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
767	39177	जीहोवा एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड ।
768	39178	अप्टाप मशीन माट्रीक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
769	39182	ए-ओण् शीप फाम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
770	39188	सिमेन्ट ब्रिक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
771	39196	चेन्नै विरगो कम्प्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
772	39203	एशियावैड रिसोर्सस प्रैवेट लिमिटेड ।
773	39214	ग्रिन्वेस मिडिया सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
774	39217	सुँपर ब्रिक्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
775	39228	सबरी स्पिन्निंग मिल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
776	39238	रोस काम्पकाम प्रैवेट लिमिटेड ।
777	39241	साक्स कान्फ्रिट् पैल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
778	39251	पवीत्रा रियल्टेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
779	39254	जगद्गुरु केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
780	39273	डीएम एक्सेल इन्जीनियर्स & कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
781	39315	डेटा इन्फोवोर्क्स प्रैवेट लिमिटेड
782	39316	श्रीसैलम् आग्रो एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
783	39322	भरणी आग्रो प्रैवेट लिमिटेड ।
784	39341	नागै रिसारट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
785	39350	वैगै इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
786	39352	तिरुमलै बालाजी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
787	39373	इन्फोसाफ्ट् सोलुशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
788	39381	कडदानाड् चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
789	39405	श्रवण अप्परेल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
790	39412	क्रिस्ट् एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
791	39421	श्री महागणपती स्टाक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
792	39422	मिल्लीनियम् फाम्स एण्ड प्रोपरटीस प्रैवेट लिमिटेड ।
793	39424	ट्रान्सी शिपिंग एजेन्सीस (सरुद) प्रैवेट लिमिटेड ।
794	39428	कण्णात्ता चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
795	39429	मेक्सेल प्रोपरटीस & मैन्डेनेन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
796	39435	रोम्बोस इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
797	39439	विनायगा विशण प्रैवेट लिमिटेड ।
798	39447	नेटवर्क आटोमेशन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड ।
799	39451	होरिजण केमिकल कलर कम्बैन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
800	39453	ग्रिन पीस ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
801	39455	एजीस अजानिम् प्रैवेट लिमिटेड ।
802	39458	विस्वा बिलिन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
803	39484	एसकेएल टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड ।
804	39485	सेप्प्रास इन्टिटूट् आफ़ फ़ाम्वेर टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
805	39487	जीआर कान्ग्रिट् ब्लाक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
806	39500	राम्यास फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड ।
807	39514	वीजीएल टैम बौन्ड कणसल्टेन्सी सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
808	39540	पीआरएस साफ़्टेक (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड ।
809	39548	मन्ना एक्सपोर्टर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
810	39556	सीएसएमए सिस्टेम्स & सोलुशन प्रैवेट लिमिटेड ।
811	39558	विजयलक्ष्मी होम बिल्डर्स (चेन्नै) प्रैवेट लिमिटेड
812	39572	यूरेका हट्चेरिस प्रैवेट लिमिटेड ।
813	39578	अल्-इब्राहिम् एयर ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड ।
814	39580	मेगास्टोन रिसार्ट्स & एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
815	39587	शिवशक्ती पॉवरकेम प्रैवेट लिमिटेड ।
816	39598	जेम्स काम्बयो प्रैवेट लिमिटेड ।
817	39617	एडिवन चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
818	39618	नरसिम्हा कारटो पाक प्रैवेट लिमिटेड ।
819	39624	प्रोफ़्ट्रम प्रोपरटी सरवीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
820	39643	अल्फ़स्का मीरा बयो-टेक प्रैवेट लिमिटेड
821	39657	स्पीड् फोरेक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
822	39658	रहेम् फोरेक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
823	39661	कानरि क्लोदिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
824	39662	श्री सिद्धी विनायगा चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
825	39673	सेल्वश्राम् चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
826	39679	साफ़्टप्रो इन्फ़रमेशन टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड ।
827	39680	जेजी डुरामेटल इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
828	39686	सेप्टगन् कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड ।
829	39689	गुरू दर्शन हालिडे रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
830	39692	पेर्फ़ेक्ट एन्टरप्राइसस प्रैवेट लिमिटेड ।
831	39693	विण्टेक कम्प्यूटर सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड ।
832	39702	नीटी लिफ़्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
833	39710	हरशिणी कणस्ट्रक्शन्स & प्रोपरटी डेवलप्मेन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
834	39720	श्री वसन्दकावेरी चिट्स प्रैवेट लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
835	39739	अध्रेया इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड ।
836	39771	लार शेयर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
837	39774	क्वागेर फैनाशियल सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
838	39778	सत्यसारदा चिट्स चेन्नै प्रैवेट लिमिटेड ।
839	39782	चाण्डी मिनरल्स एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
840	39786	शिन्गा ट्रेडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
841	39787	एकेएसएम राक् इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड ।
842	39791	वाहार इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड ।
843	39794	कूक-हिल् एन्टरप्राइसस प्रैवेट लिमिटेड ।
844	39808	चिण्ड फ म इक्यूप्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
845	39813	बिल्डमान फौन्डेशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
846	39817	आर.आर.शेल ग्राफ्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
847	39825	अल्-अजीस ब्रोइलर फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
848	39830	सेश मल्टीमिडिया प्रैवेट लिमिटेड ।
849	39846	श्री हयवरदना कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
850	39852	कल्ब्रोस सर्वीसस प्रैवेट लिमिटेड ।
851	39866	अस्मा ओवरसीस मारकेटिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड ।
852	39871	आरगानिक सेन्ना प्रोडियुसर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
853	39879	मल्टीपिल मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड ।
854	39882	सीरा इन्फोसिस प्रैवेट लिमिटेड ।
855	39889	डिक्सेण डेट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
856	39890	धर्मा तेर्मोकूल प्रैवेट लिमिटेड ।
857	39904	पल्लवा एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड ।
858	39913	श्री मुणियान्डी फैनान्स & इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ।
859	39914	पिल्लेर्स बिल्डेर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
860	39918	त्वारकनकर डिप्पार्टमेन्टल स्टोर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
861	39921	क्रिरिदिका फौल्ट्री फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड ।
862	39926	हेवणस्ली लोटस केम टेक इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड ।
863	39950	आकूटी फारमा प्रैवेट लिमिटेड ।
864	39963	प्रसन्ना प्रिन्टोग्राफ्स प्रैवेट लिमिटेड ।
865	39968	एस.के. (केप्सा) प्रैवेट लिमिटेड ।
866	39973	एमपीएन वेबसिटी कम्यूनिकेशन् प्रैवेट लिमिटेड ।
867	39975	जे.एन.ओयिल्स & लबोरेटोरिस प्रैवेट लिमिटेड ।
868	39981	चेन्नै सिरटेम्स & सोलुशन्स प्रैवेट लिमिटेड ।
869	39995	टान्सेम पेट्रो लिमिटेड ।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
870	40003	पोदिगै टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
871	40005	काम्पोनेंट साफ्टवेअर प्राइवेट लिमिटेड
872	40024	गंगा सिल्वर स्ट्रीम कंसल्टन्सी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
873	40058	नोवा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
874	40074	नटराजा होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
875	40078	ए आर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
876	40097	आर पी के प्लांटर्स प्राइवेट लिमिटेड
877	40136	ग्राफिक एफेक्ट्स एण्ड अनिमेशन टेक्निक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
878	40145	प्रिया इंजीनियरिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
879	40146	श्रिडि आंडवर एण्टर्प्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
880	40150	नंदिकेश्वरा फैनान्सियल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
881	40156	वेन्निला रेस्टोरंट्स प्राइवेट लिमिटेड
882	40158	कोनार फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
883	40162	मरुदमलैया एजंसी प्राइवेट लिमिटेड
884	40163	महा मार्केटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
885	40164	रैटसर्च एचआरडी कंसल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
886	40170	वीएस हास्पिटालिटी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
887	40185	सन्प्रा एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
888	40192	नामक्कल डायरी प्राइवेट लिमिटेड
889	40194	मारकोरिलोस सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
890	40200	मेस्ट्रो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
891	40204	नीला शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
892	40206	श्री अयप्पन अग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
893	40207	वीरम डोरस्टेप सप्लै एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
894	40218	विक्रिसन साफ्टवेअर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
895	40230	जयमुत्तु चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
896	40233	कैप्लियो फेशनस प्राइवेट लिमिटेड
897	40240	जीटीआर गोल्डन फिनान्सियल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
898	40258	राकमैन ग्रानैट प्राइवेट लिमिटेड
899	40260	ग्रेस फ्रैट फार्वर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
900	40268	एक्लाट इंस्ट्रुमेण्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
901	40274	अल सबाह इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
902	40286	जाग्रण टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
903	40289	पेगासस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
904	40298	एस & डी मेन पवर सक्ससफुल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
905	40304	वीरम इन्नोवेटिव इन्फर्मेशन एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
906	40316	बीआरएस कंस्ट्रक्सन्स प्राइवेट लिमिटेड
907	40333	धनलक्ष्मी टेक्सटैल प्राससर्स प्राइवेट लिमिटेड
908	40336	सावरिन इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
909	40344	शीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड
910	40349	आर एस एम चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
911	40368	तरण्या फेनान्स प्राइवेट लिमिटेड
912	40379	जी के एल सी मैनिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
913	40380	रायसन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
914	40384	वी जे आर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
915	40391	हेरंबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
916	40395	जयशक्ति एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
917	40504	पी एम एफ चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
918	40507	सरजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

डी. सूर्यनारायण
सहा. कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मै. लोणस्टार सप्लायज एण्ड लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।
कोच्चि-682 021, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. 16728/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. लोणस्टार सप्लायज एण्ड लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लत
कम्पनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 1 अगस्त 2007

सं. सी.वी.एस./एस.ई.एस.-2005/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिए गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6002	मै. रजस्सू फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	6248	मै. एन्टोक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	4702	मै. शांति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	1372	मै. मद्रास केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	10545	मै. रिषीराज होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	10320	मै. बुक्स लैदर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	6401	मै. इण्डियाना फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	10208	मै. हीवीया पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	6547	मै. दादाजी फ्रूट्स प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	8829	मै. क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
11.	7613	मै. पटेल सिस्टैक प्राईवेट लिमिटेड
12.	2169	मै. पीवाक कन्टेनर्स लिमिटेड
13.	9942	मै. श्री वैद्यनाथेश्वरा स्वामी चित फन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
14.	9731	मै. न्यूटेक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	9718	मै. कयार इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	7178	मै. इन्डबेकर इण्डिया लिमिटेड
17.	3033	मै. कर्नाटका मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	7812	मै. थजालीयथ बिल्डमैट प्राईवेट लिमिटेड
19.	9537	मै. साउदर्न कम्फर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	9515	मै. वी. एम. कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	11995	मै. रिच ग्रेनाईट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
22.	11970	मै. प्राक्रुथी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	11957	मै. शिवा इन्स्टा अपारेल्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	9607	मै. फ्लोरा फाउन्टेन कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	9340	मै. एम. वी. इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	9103	मै. अनन्था कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
27.	11345	मै. कान्ति एग्रो प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड
28.	2736	मै. महाजन ड्रिलिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	11367	मै. विजू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	11462	मै. ग्राटीस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	11216	मै. फिसर चित फन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	11113	मै. अरूर लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	3566	मै. मर्करा एग्रो ऑक्शनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	3537	मै. साईराम केमिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
35.	3401	मै. मैसूर इंडस्ट्रियल डायमंड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	3222	मै. नागराज एण्ड एसोसिएट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	2484	मै. श्री कन्टेश्वरा केमिकल्स एण्ड डाईस प्राईवेट लिमिटेड
38.	7624	मै. एस. आर. एम. इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
39.	11052	मै. सतीश लाईट्स एण्ड लाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	10658	मै. स्लीक क्रोम प्राईवेट लिमिटेड

सी. वी. सजिवन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 6th August 2007

No. DP/PERS.I/2007/149/3/17/95.—Shri O. P. Chhatwal relinquished charge of the post of Dy. Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31-07-2007.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

No. DP/PERS.I/2007/150/3/64/2004-Pers.I.—Shri V. T. Nandakumar relinquished charge of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 15-7-2007 on voluntary retirement under rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 3rd August 2007

No. P.III-2/2007-Pers-3.—Consequent on their promotion to the post of Administrative/Section Officer, the following Sudebar Major/Office Superintendent have taken over charge as Administrative/Section Officer in the Offices and dates as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of taking over charge
1.	Sh. T. M. Mathew, Adm. Officer, IRLA No. 7262	O/o. Addl. DIGP, GC, CRPF, Muzaffarpur (Bihar).	29.06.2007 (FN)
2.	Sh. S. S. Panwar, Adm. Officer, IRLA No. 7271	O/o. IGP, CRPF, Jammu (J&K).	16.07.2007 (FN)
3.	Sh. Kishore Soreng, Adm. Officer, IRLA No. 7256	O/o. IGP, CRPF, New Delhi.	16.07.2007 (FN)
4.	Sh. Jagannath Singh, Adm. Officer, IRLA No. 7266	O/o. Addl. DIGP, GC, CRPF, Gwalior (M.P.)	09.07.2007 (FN)

K. K. SIVA PRASAD
Addl. DIG (Pers-III)

New Delhi-110003, the 8th August 2007

No. O.II. 1472/80-CRC (MOs).—On her voluntary retirement, Dr. (Mrs.) Jyotsnamai Nayak, (IRLA-1419) CMO

(NFSG) of, CRPF, Bilaspur made over charge of her post from the forenoon of 25.6.2007. Accordingly, her name deleted from the strength of the Force from 25.6.2007 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O-II-7052/2007-Pers-I.—Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Manish Pandey (IRLA-7052) Trainee Officer, 38th batch DAGOs of CRPF Academy Kadarapur, was relieved from his post on 19 July, 2007 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the Force with effect from the same date i.e. 19.07.2007 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O-II-3757/07-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Deepak Kumar (IRLA-7278) as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the Afternoon of 19.5.2007 till further order. he is posted to 53 Bn. CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 8th August 2007

No. A.12012/3(Addl. Dir)/2007-Admn.II.—The President of India is pleased to promote Shri K. K. Sharma, Joint Director of this Directorate to the post of Additional Director in the pay scale of Rs. 14,300—18,300/- with effect from the forenoon of 26th July, 2007.

2. This has the approval of the Govt. of India, MHA, New Delhi, vide their Dy. No. 639/MOS(J)/07 dated 25th July, 2007.

KAMLESH DEKA
Director

No. A.17011/40(D-118)/2006-Admn.II.—Shri Durga Nand Das, Joint Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.07.2007.

KAMLESH DEKA
Director

MINISTRY OF FINANCE

BANK NOTE PRESS, DEWAS

(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Limited)

Dewas, the 3rd August 2007

No. BNP/C/44/98-1.—Shri R. A. Supekar, Inspector Control is promoted to the post of Deputy Control Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (Group-B) w.e.f. 01.08.2007 on regular basis until further orders.

D. V. GONDNALE
General Manager

INDIA SECURITY PRESS

(A unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

Nashik Road-422101, the 26th July 2007

Sub : Appointment of Dy. Control Officer by promotion on regular basis—reg.

No. 7133/EST-18-1.—Mr. V. G. Jamkhedkar, Inspector Control, is appointed to the post of Dy. Control Officer (Group-B Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- by promotion on regular basis w.e.f. 10.07.2007 in India Security Press, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B).

2. He will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

PRAKASH NARAYAN
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 3rd August 2007

No. Admn./O.O. No.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Madan Mohan Bakshi, Sr. Audit Officer (Rs. 8,000-275-13,500/-) of this office is retiring from Government Service on 31.8.2007 (A/N).

His date of birth is 16.08.1947 and he joined Government service on 04-08-1969.

VIKRAM D. MURUGRAJ
Dy. Dir. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 3rd August 2007

No. Admn./Prom/5-4/207-2008/59.—Principal Accountant General is pleased to promote the following

Assistant Audit Officers (Civil) to officiate as Audit Officers (Civil) in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
1.	T. Sreenivas Reddy	78/31.07.2007	01.08.2007
2.	O. V. Subrahmanya Sarma	-do-	-do-

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India. O.M. No. F. 7/1/80-Estt (P.I) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt (P.I) dated 08.02.1983.

C. SAILAJA
Sr. DAG (Admn.)

No. Admn./Prom/8-132/207-2008/60.—Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers with effect from the date noted against the names :—

Sl. No.	Name of the Officer and Designation	Date of Retirement
1.	Shri P. Raja Gopala Rao-I	31-07-2007 AN
2.	Shri P. Venkat Rao	31-07-2007 AN

C. SAILAJA
Sr. DAG (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 7th August 2007

No. PD/7(14)/2006-R-IV/7021.—The President is pleased to appoint Dr. Appadurai Laborious Rufs, a Scientific Officer/Engineer Grade 'E' (scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' (scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) in the same Research centre with effect from the forenoon of July 2, 2007 in an officiating capacity until further orders.

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

Mumbai-85, the 8th August 2007

Ref: PD/6(2)/2007-R-III/2007/7049.—Controller, BARC appoints Shri Mathew M. John, Assistant, BARC, Mumbai

to officiate as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at BARC, Mumbai w.e.f. the forenoon of 1st August, 2007 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 2nd August 2007

No. 6(2462)/2007-Admn/1636.—The President is pleased to appoint Shri M. Pran Konchady (ICAS : 1982) as Chief Controller of Accounts in the Department of Atomic Energy, Mumbai in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of July 23, 2007 until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

Mumbai-400001, the 3rd August 2007

No. 18/4/2007-ER/2262.—Consequent on acceptance of his resignation, Shri Sanjay C. Patel, has relinquished the charge of the post of Scientific Officer (E) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the afternoon of 29.6.2007.

O.T.G. NAIR
Under Secy.

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 1st August 2007

Ref.: DPA/11005/Rectt./3670.—Director, Directorate of Purchase & Stores (DPS), Department of Atomic Energy (DAE), appoint Shri N. Subramani, Assistant Accounts Officer [Scale of pay Rs. 7,450-225-11,500/-] as Accounts Officer [Scale of pay Rs. 7,500-250-12,000/-] in this Directorate with effect from the forenoon of June 25, 2007 until further orders.

S. KRISHAN
Administrative Officer-III

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidhant Polymer Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12647/6001.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies

Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Sidhant Polymer Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Royal Journeys Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14685/6005.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Royal Journeys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Vasundhara Non Woven Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10138/6009.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Vasundhara Non Woven Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sovereign Apotheke and Sales Management
Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9292/6013.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Sovereign Apotheke and Sales Management Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Khushbu Fincap Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14192/6017.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Khushbu Fincap Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Diksha Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14978/6033.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Diksha Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hotel Sajan Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12572/6021.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Hotel Sajan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Uma Automobiles Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6616/6037.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Uma Automobiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. GLJ XL-Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14748.6025.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. GLJ XL-Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. J. R. Modi Jewels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/17075/6041.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. J. R. Modi Jewels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Chartered Solutions and Softwares Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14817/6029.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Chartered Solutions and Softwares Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Meel Computers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/17068/6045.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the company M/s. Meel Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Swot Capital Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14809/6049.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Swot Capital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. City Life Facility Card Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15130/6065.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. City Life Facility Card Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ram Prasad Cold Storage Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14341/6057.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ram Prasad Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kunti Aroma Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15410/6069.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kunti Aroma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. C. G. M. Forest Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14591/6053.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. C. G. M. Forest Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Bhilwara Surveyors Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14112/6073.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Bhilwara Surveyors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ashok Vatika Amusement Park Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14409/6061.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ashok Vatika Amusement Park Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Vrindaban Associates Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12399/6077.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vrindaban Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Naya Rajasthan Publication Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12296/6081.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Naya Rajasthan Publication Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sara Motor Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13762/6097.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sara Motor Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Polycraft Packings Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11937/6085.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Polycraft Packings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sudarshan Colonisers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13771/6101.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sudarshan Colonisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shyam Travels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13708/6089.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shyam Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sungold Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13781/6105.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sungold Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Mahla Dairy Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13743/6093.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Mahla Dairy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Banswara Cement Works Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11933/6109.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Banswara Cement Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shambhu Cements Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6132/6113.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shambhu Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. S. P. Electroplast Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11444/6117.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. S. P. Electroplast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Twinkle Cargo and Travels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11529/6121.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Twinkle Cargo and Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Akhilesh Balls Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11542/6125.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Akhilesh Balls Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. BJ Gems Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11980/6129.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. BJ Gems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Overseas Softwares Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11580/6133.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Overseas Softwares Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. SSD Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12694/6137.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. SSD Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kay Kay Resorts Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9144/6141.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kay Kay Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Gemini Photo Process Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12532/6145.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Gemini Photo Process Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. I Q Computers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10756/6161.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. I Q Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Pink City Retreat Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15589/6149.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Pink City Retreat Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. B. R. Cassettes Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15118/6165.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. B. R. Cassettes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Yashwant Propertied Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12136/6153.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Yashwant Propertied Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Amrit Leela India Finance Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13422/6177.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Amrit Leela India Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Seth Chandu Lal Rolling Mills Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14144/6157.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Seth Chandu Lal Rolling Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Bidaji Resorts and Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14165/6169.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Bidaji Resorts and Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Dhan Laxmi Creations Fincap Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14638/6173.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Dhan Laxmi Creations Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. G. C. M. Build-Con Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14357/6181.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. G. C. M. Build-Con Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hasta-La-Vista Resorts Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/17044/6185.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Hasta-La-Vista Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Meridian Technoprints Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14225/6189.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Meridian Technoprints Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Nikhil Apparel Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13456/6193.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Nikhil Apparel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Poonam Dye-Chem Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13491/6197.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Poonam Dye-Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shri Jai Hanuman Tex Print Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12520/6201.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shri Jai Hanuman Tex Print Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Aadinath Associates Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12171/6205.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Aadinath Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Santosh Decorators Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14130/6209.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Santosh Decorators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Dial Me Home Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14490/6213.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Dial Me Home Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Silver Lake Holiday Homes Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14360/6217.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Silver Lake Holiday Homes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hanuman Salt and Allied Chemicals Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14179/6221.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Hanuman Salt and Allied Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hard Core Fabricators Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13801/6225.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Hard Core Fabricators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Relax Cements Industries Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4420/6229.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Relax Cements Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shayogi Laminations Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6567/6233.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shayogi Laminations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Vishesh Financial Consultants Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7048/6237.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vishesh Financial Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Paridhi Securities Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10429/6241.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Paridhi Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. North Capital Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8828/6245.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. North Capital Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Suntek Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10433/6249.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Suntek Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Indus Valley Garments Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6717/6253.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Indus Valley Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shyamgiri Capfin Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12696/6257.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shyamgiri Capfin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ganga L.P.G. Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9099/6261.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ganga L.P.G. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jaipur Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9256/6265.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jaipur Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ajmer Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6759/6269.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ajmer Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Cheetal Resorts Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10411/6273.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Cheetal Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shubdeep Associates Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7072/6277.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shubdeep Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Charu Syntex Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4438/6281.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Charu Syntex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Perik View Builders and Developers Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12628/6285.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Perik View Builders and Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sians Finance and Investment Company Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12664/6289.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sians Finance and Investment Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Namrata Cements Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6168/6293.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Namrata Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Bright Builders Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6165/6297.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Bright Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. G. B. Alloys Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6169/6301.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. G. B. Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sharda Refineries Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6162/6305.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sharda Refineries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Manglam Drawtex Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6164/6309.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Manglam Drawtex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Indian Adventures Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8171/6313.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Indian Adventures Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Infine Capital Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8191/6317.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Infine Capital Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Satnam Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11656/6321.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Satnam Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Fountainhead Impex Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8300/6325.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Fountainhead Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Chandan Electronic Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12235/6329.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Chandan Electronic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Altasha Aluminium Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12826/6333.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Altasha Aluminium Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ganga Cold Storage Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12266/6337.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ganga Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Loyal Agro Foundry Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6297/6341.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Loyal Agro Foundry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Vedmata Sales Enterprises Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6122/6345.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vedmata Sales Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Goswami Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6266/5349.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies

Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Goswami Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Himanshu Builders and Construction Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11626/6353.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Himanshu Builders and Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Odeon Appliances Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11662/6357.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Odeon Appliances Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Suman Minerals and Chemicals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6072/6361.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Suman Minerals and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Parveen Theatres Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15858/6365.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Parveen Theatres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hotel Green View Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13032/6369.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Hotel Green View Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jagdamba Refinery Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4028/6373.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jagdamba Refinery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shalimar Suitings Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4346/6377.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shalimar Suitings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Gupta Foils Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13079/6381.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Gupta Foils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rajdhani Metals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13103/6385.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajdhani Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Deshwala Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/17007/6389.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Deshwala Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Samruddh Project Consultancy Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/11396/6393.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Samruddh Project Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ashawa Recruitment Management Services
Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/15815/6397.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ashawa Recruitment Management Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Natata Farms Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/15759/6401.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Natata Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Man Capital Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13073/6405.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Man Capital Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Raghupati Alloys Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13481/6409.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Raghupati Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Dadiala Constructions Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11416/6413.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Dadiala Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Adiwasi Krishi Farm and Resort Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11941/6417.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Adiwasi Krishi Farm and Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Lakhani Plastic Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11578/6421.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Lakhani Plastic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Delta Syntex Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14186/6425.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Delta Syntex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Salty Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6681/6429.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Salty Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Minimal Invasives (USSL) Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6668/6445.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Minimal Invasives (USSL) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Laproscopics Surgeries (USSL) Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6669/6433.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Laproscopics Surgeries (USSL) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shree Shyam Fiscal Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6692/6449.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shree Shyam fiscal Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Agarwal Singh Capital Markets Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6697/6437.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Agarwal Singh Capital Markets Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shree Bhagwati Mines Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10931/6453.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shree Bhagwati Mines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Pro Tech Video Imaging Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6667/6441.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Pro Tech Video Imaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rashmi Synthetics Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10906/6457.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rashmi Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Trinity Technochem Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10507/6461.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Trinity Technochem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Singhal Fertilizer Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13907/6481.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Singhal Fertilizer Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Banas Constructions Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7043/6465.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Banas Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Arya Carpets Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4369/6477.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Arya Carpets Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Dixit Gases Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11594/6469.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Dixit Gases Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sulabh Decor Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7012/6485.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sulabh Decor Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shubhankar Card Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10527/6473.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shubhankar Card Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Design Selection (India) Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6487/6489.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Brijwasi Minerals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13650/6493.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Brijwasi Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Anchal Steels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7289/6497.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Anchal Steels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sidh Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/10677/6501.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sidh Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Weston Sales Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/11746/6505.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Weston Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Azink Chemicals Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/11765/6509.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Azink Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rajendra Kumar and Company Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/11712/6513.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajendra Kumar and Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Richa Theatres Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/15910/6521.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Richa Theatres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Mukesh Quartz Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/13483/6517.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Mukesh Quartz Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shiv Shakti Suiting Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/15914/6525.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shiv Shakti Suiting Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Khetan Agrocure Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/15736/6529.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Khetan Agrocure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sanraj Securities Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/10658/6533.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sanraj Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shri Gopi Krishna Properties Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/14189/6537.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shri Gopi Krishna Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jassal Sales Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/13802/6541.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jassal Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Gupta Fabricators Private Limited.

Jaipur, the 23rd April 2007

No. ROC/JPR/560/13804/6545.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Gupta Fabricators Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sriganganagar Oils Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/17018/6549.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sriganganagar Oils Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Swastik Transit Mixer Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/16689/6553.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Swastik Transit Mixer Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Naval Bagh Resorts and Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15655/6557.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Naval Bagh Resorts and Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Topbrass Imports Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15095/6561.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Topbrass Imports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sanwaria Air Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14198/6565.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sanwaria Air Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Proper Deal and Development Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9466/6569.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Proper Deal and Development Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Parivar Services Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9396/6573.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Parivar Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. G.J. Aqua Hygienics Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15831/6577.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. G.J. Aqua Hygienics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ankit Edible Foods Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12672/6581.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ankit Edible Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Saran Tractors Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15840/6585.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Saran Tractors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Cygnet Telecommunication Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14011/6589.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Cygnet Telecommunication Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Maa Bharti Institute of Management Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12540/6593.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Maa Bharti Institute of Management Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. K. C. Buildcon Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12513/6597.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. K. C. Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rangoli Capital Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/12180/6601.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rangoli Capital Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Unique Telelink India Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/16851/6605.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Unique Telelink India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Harsh Hygiene Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14563/6609.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Harsh Hygiene Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shriladliji Computers (India) Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14595/6613.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shriladliji Computers (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Goldrange Farming Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/14559/6617.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Goldrange Farming Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. MV Meditrans Online Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/16786/6621.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. MV Meditrans Online Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Saroj Construction Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4493/6625.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Saroj Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Udaipur Photoset Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4290/6629.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Udaipur Photoset Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. K. D. Carriers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10554/6633.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. K. D. Carriers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sangner Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7364/6637.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sangner Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Versatile Products and Printers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4342/6641.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Versatile Products and Printers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. P.G.H. Thermo Industries Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4008/6645.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. P.G.H. Thermo Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Swastika Colonizers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7463/6649.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Swastika Colonizers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Misaka Hitech Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11562/6653.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Misaka Hitech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shree Khivansar Cements Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6104/6657.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shri Khivansar Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ajanta Equipment Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6010/6661.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ajanta Equipment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kanji Finance Company Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11568/6665.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kanji Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Brilliant Magnetic (India) Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7123/6669.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Brilliant Magnetic (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Avant Garde India Exim Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7131/6673.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Avant garde India Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rajasthan Petroleums Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7141/6677.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajasthan Petroleums Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. High Value Engineers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13800/6681.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. High Value Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Survagaya Chemicals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13755/6685.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Survagaya Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ridhi Sidhi Colonisers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13772/6689.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rishi Sidha Colonisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shivam Infoways Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15908/6693.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shivam Infoways Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Padmawati Dye Stuffs Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15160/6697.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Padmawati Dye Stuffs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Aadinath Propcon Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13393/6701.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Aadinath Propcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Pooja Electro Town Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13287/6505.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Pooja Electro Town Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Neera Pharmaceuticals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6158/6709.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Neera Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Prithvi Estates Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6139/6713.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Prithvi Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sonawat Spinners Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13442/6717.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sonawat Spinners Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. B. M. Cannery Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13445/6721.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. B. M. Cannery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Nakoda Naturals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13432/6725.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Nakoda Naturals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Copchem (India) Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10656/6729.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Copchem (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sanjay Fabrics Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4443/6733.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sanjay Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shivang Finance and Investment (India) Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4309/6737.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shivang Finance and Investment (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kasliwal Minerals Processors Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4018/6741.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kasliwal Minerals Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jodhpur Typesetters Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4291/6745.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jodhpur Typesetters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Prakash Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4248/6753.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Prakash Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Alwar Publishing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4293/6749.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Alwar Publishing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ajmer Printers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4295/6757.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ajmer Printers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jai Processors Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4481/6761.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jai Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jeet Incap Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11920/6765.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jeet Incap Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kalindee Green Capital Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11903/6769.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Kalindee Green Capital Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. SCG Finlease Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11953/6773.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. SCG Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jaipur Dhundhar Resorts Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8357/6777.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jaipur Dhundhar Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Nidhi Electronics Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4374/6781.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Nidhi Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Aravali Holidays Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10703/6797.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Aravali Holidays Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Singh Ceramics Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4304/6785.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Singh Ceramics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Agrasen Solvex Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6618/8801.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Agrasen Solvex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Achint Crystal Glass Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4409/6789.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Achint Crystal Glass Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jindal Cements Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6615/6805.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jindal Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Radical Rare Earth Metals Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4457/6793.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Radical Rare Earth Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hayat Developers and Promoters Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6604/6809.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Hayat Developers and Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shyam Coal and Coke Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6603/6813.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shyam Coal and Coke Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Hotcab Cables and Wires Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6593/6817.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Hotcab Cables and Wires Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sameer Colour Lab. Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/10596/6821.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sameer Colour Lab. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Vijay Shree Colonisers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7020/6829.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vijay Shree Colonisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ravindra Securities Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9481/6825.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ravindra Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rajputana Travels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13841/6833.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajputana Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Monolith Expo Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13644/6837.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Monolith Expo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Royal Huts Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13670/6841.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Royal Huts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Tholia Builders Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13655/6845.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Tholia Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. SVS Advertising Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13668/6849.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. SVS Advertising Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Fateh Construction Company Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13716/6853.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Fateh Construction Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sengar Engineers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13717/6857.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sengar Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Van Soft Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13795/6861.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Van Soft Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Spectrum Gems Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13734/6865.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Spectrum Gems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shree Mangal Entertainers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11454/6869.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shree Mangal Entertainers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Deep Gems Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8028/6845.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Deep Gems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ashawa Infonet Management Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15730/6873.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ashawa Infonet Management Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. R. Jassal Marketing Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13803/6877.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. R. Jassal Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Mother Creations Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13199/6881.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Mother Creations Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Veer Vardhman Rollwell Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13288/6885.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Veer Vardhman Rollwell Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sonkiya Agroforestry Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15186/6889.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sonkiya Agroforestry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jajodia Buildcon Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13321/6893.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jajodia Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Adarsh Conductors Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15739/6897.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Adarsh Conductors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Eminent Medicare Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15721/6901.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Eminent Medicare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sapphire Travels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13359/6905.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Sapphire Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Champadeep Hospitality and Resorts Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15636/6909.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Champadeep Hospitality and Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Mateshwari Electronics Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/13196/6913.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Mateshwari Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Pragmatic Marketing Company Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8884/6917.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Pragmatic Marketing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Unique Telecom and Instruments Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8085/6921.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Unique Telecom and Instruments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shakun Export Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/9650/6925.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shakun Export Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Bikaner Cotton Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/15592/6929.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Bikaner Cotton Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Falgoon Farms Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8203/6933.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Falgoon Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Anurag Cements Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8078/6937.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Anurag Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Jamna Securities Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8023/6941.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jamna Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Green Belt Informations Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/7376/6949.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Green Belt Informations Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Asha Cements Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/5382/6953.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Asha Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ladli Suitings Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/5578/6957.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ladli Suitings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Suvidha Bhawan Nirman Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/5519/6961.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Suvidha Bhawan Nirman Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shree Aaradhana Capital Services Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/11777/6965.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Shree Aaradhana Capital Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. E. T. Software Exports Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8083/6969.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. E. T. Software Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Arushi Security and Capital Services Private
Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8091/6973.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Arushi Security and Capital Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Rajputana Builders Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4510/6977.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rajputana Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Mewar Suppliers Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6632/6981.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Mewar Suppliers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Khatri Cement Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6017/6985.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Khatri Cement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Neel Gagan Hotels Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/8321/6989.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Neel Gagan Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Action Suitings Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/4103/6993.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Action Suitings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Vasudev Vegetarian Home Private Limited.

Jaipur, the 23rd March 2007

No. ROC/JPR/560/6939/6997.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vasudev Vegetarian Home Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Paras Industries Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003586 of 2007/816.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paras Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Lalpatty Trading India Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003562 of 2007/817.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lalpatty Trading India Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Baba Shivam Tours and Transporters Private
Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003561 of 2007/818.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baba Shivam Tours and Transporters Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Nightingale Nursing Home Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003223 of 2007/819.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nightingale Nursing Home Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Dressco Fabrics Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003505 of 2007/820.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pressco Fabrics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kaziranga Constructions Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003522 of 2007/821.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kaziranga Constructions Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sambit Hotel Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. TR003548 of 2007/822.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sambit Hotel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Plast India Pipes and Cable Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003518 of 2007/823.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Plast India Pipes and Cable Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sweety Courier and Agency Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003507 of 2007/824.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sweety Courier and Agency Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Pangram Agrochem Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003555 of 2007/825.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pangram Agrochem Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Nabolok Tours and Travels Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003559 of 2007/826.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nabolok Tours and Travels Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. North East Aviation Services Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003573 of 2007/827.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. North East Aviation Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Meghalaya Tubes & Engineering Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001982 of 2007/828.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meghalaya Tubes & Engineering Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Savio Systems Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001968 of 2007/829.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Savio Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Arunachal Enterprises Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AR001979 of 2007/830.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arunachal Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ashish Steels Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001950 of 2007/831.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashish Steels Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Oriental Stomeware Pipes Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001966 of 2007/832.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Oriental Stomeware Pipes Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Ekta Tea Company Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001958 of 2007/833.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ekta Tea Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. R. C. Steel Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001811 of 2007/834.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. C. Steel Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Lohit Saw and Vaneer Mills Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AR001986 of 2007/835.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lohit Saw and Vaneer Mills Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kasaudan Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001981 of 2007/836.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kasaudan Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Cachar Plantation and Farm Industries Private
Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001880 of 2007/837.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cachar Plantation and Farm Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. North Eastern Peoples Publications Private
Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001885 of 2007/838.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. North Eastern Peoples Publications Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shanti Investments Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001841 of 2007/839.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shanti Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Luit Nirman Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001833 of 2007/840.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Luit Nirman Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Sri Naginimora Wood Products Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. NA001851 of 2007/841.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Naginimora Wood Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Northeast Minerals Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS001842 of 2007/842.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Northeast Minerals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Becon Advertising Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003578 of 2007/843.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Becon Advertising Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Luhit Agro Products Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003527 of 2007/844.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Luhit Agro Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Shree Suswani Sweets Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003583 of 2007/845.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Suswani Sweets Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Bani Prokash Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003576 of 2007/846.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bani Prokash Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Fatichcherra Rubber Estates Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003588 of 2007/847.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fatichcherra Rubber Estates Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Arunachal Tobacco Co. Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AR003579 of 2007/849.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arunachal Tobacco Co. Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Baruahs Hospital Private Limited.

Shillong-793001, the 1st August 2007

No. AS003560 of 2007/850.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Baruahs Hospital Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and
of the following Companies :

Chennai, the 6th August 2007

No. 23597 to 40507/560(3)/Suo Motto-2006.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Registrar and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	23597	M/s. Grammy Plantations (India) Limited.
2.	24760	M/s. Growmore Plantations Private Limited.
3.	25558	M/s. Khyber Valley Plantations Private Limited.
4.	25564	M/s. Aliya Plantations Private Limited.
5.	25657	M/s. Everest Polysacks (India) Limited.
6.	26022	M/s. Kodai Iswaryas Holiday Resorts Private Limited.
7.	26024	M/s. Maxima Chits (Madras) Private Limited.
8.	26039	M/s. Kamalesh Farm Products Private Limited.
9.	26063	M/s. Orion Aqua Farms Private Limited.
10.	26086	M/s. Mukesh Plantations Private Limited.
11.	26090	M/s. Brindavan Agro Farms and Resorts Private Limited.
12.	26095	M/s. Chinnammal Finance Private Limited.

1	2	3
13.	26108	M/s. Metro Detective Agency (Madras) Private Limited.
14.	26109	M/s. Sri Ganesh Solvents Private Limited.
15.	26112	M/s. Pisces Exports Private Limited.
16.	26180	M/s. Papain Agro Farms (India) Private Limited.
17.	26368	M/s. Saransh Leathers Private Limited.
18.	26379	M/s. Performance Computer & Electronics Private Limited.
19.	26953	M/s. K.A.K. Chit Funds Private Limited.
20.	27024	M/s. Hotel Jasmine Private Limited.
21.	27069	M/s. Radhakrishana Investments & Leasing Private Limited.
22.	27077	M/s. Nayanshanthi Hotels Private Limited.
23.	27230	M/s. Full Moon Property Promoters Private Limited.
24.	27285	M/s. Definite Finance and Investments Private Limited.
25.	27302	M/s. Qbik Marketing (Madras) Private Limited.
26.	27351	M/s. Nel Chits (India) Private Limited.
27.	27412	M/s. Sri Madurambigai Finance Private Limited.
28.	27418	M/s. Ezhil Padma Chit Fund Private Limited.
29.	27489	M/s. Dynapower Engineers Private Limited.
30.	27495	M/s. Flux Surgitech Private Limited.
31.	27507	M/s. Multi Focus Exports and Marketing Private Limited.
32.	27578	M/s. Vaigai Investments and Leasing Limited.
33.	27588	M/s. Sri Pandian Chit Funds Private Limited.
34.	27598	M/s. Saksa Stocks & Savings Private Limited.
35.	27614	M/s. Golden Heart Exports Private Limited.
36.	27621	M/s. Klams Poly-Kristel Private Limited.
37.	27625	M/s. Sri Lakshmichaitanya Agro Farms and Estates Private Limited.
38.	27627	M/s. R. R. Agro Farms and Estates Private Limited.

1	2	3	1	2	3
39.	27639	M/s. Blossoms Tours & Travels Private Limited.	64.	27937	M/s. GNR Financial Resources Private Limited.
40.	27679	M/s. Vimal Agro Farm (Tuticorin) Private Limited.	65.	27947	M/s. Newlyne Cosmetics Private Limited.
41.	27687	M/s. Saif Leather Private Limited.	66.	27949	M/s. Harmony Express Services Private Limited.
42.	27692	M/s. Sri Devi Akshaya Chit Funds Private Limited.	67.	27956	M/s. Manavaati Traders Private Limited.
43.	27727	M/s. S. R. Flash Butt Welding Private Limited.	68.	27962	M/s. Poornalaya Medical Equip Private Limited.
44.	27731	M/s. Sree Sivanandha Chit Funds (Madras) Private Limited.	69.	27971	M/s. Shree Anuman Pharma Chem Private Limited.
45.	27741	M/s. Navrathna Forms Private Limited.	70.	27988	M/s. Pamban Tours & Travels Private Limited.
46.	27748	M/s. Mannargudiamma Chits Private Limited.	71.	28009	M/s. Sunip Software Consultants Private Limited.
47.	27773	M/s. Sree Prasanth Investment Finance and Leasing Private Limited.	72.	28013	M/s. Vane Latha Finance (Try) Private Limited.
48.	27791	M/s. J. J. Health Care Centre Private Limited.	73.	28014	M/s. Bharath Computers Private Limited.
49.	27794	M/s. Aalphaa Campus Service Private Limited.	74.	28015	M/s. Scentaby Agro Farms & Entertainments Private Limited.
50.	27815	M/s. Leather and Leather Goods (Madras) Private Limited.	75.	28018	M/s. Amar Auto Forgings Private Limited.
51.	27851	M/s. Chaithnya Vaishnavi Copiers Private Limited.	76.	28301	M/s. Soorian Investment & Finance India Private Limited.
52.	27855	M/s. Friends Manpower Consultancy Private Limited.	77.	28033	M/s. Star Prawns Culture Private Limited.
53.	27861	M/s. V.S.R. Agro Farms Private Limited.	78.	28035	M/s. Sri Vetrivel Finance Private Limited.
54.	27868	M/s. Bhaghiya Mahalaxmi Chits Private Limited.	79.	28068	M/s. Suba Meenakshi Chits Private Limited.
55.	27872	M/s. Amritha Financial Services Private Limited.	80.	28076	M/s. Unique Aqua Exports Private Limited.
56.	27879	M/s. Nellai Textiles Private Limited.	81.	28077	M/s. Rockshine Exports Private Limited.
57.	27883	M/s. Sea Queen Aqua Culture Private Limited.	82.	28094	M/s. M.B.R. Exports Private Limited.
58.	27890	M/s. Divya Ganesh Finance Private Limited.	83.	28105	M/s. Megalith Fabric Exports Private Limited.
59.	27895	M/s. Anupriya Housing and Property Development Private Limited.	84.	28113	M/s. Chakra Raja Finance and Investments Private Limited.
60.	27896	M/s. Ecosys Solutions Private Limited.	85.	28134	M/s. Billions Marketing Communications Private Limited.
61.	27907	M/s. Multiprops Estates Private Limited.	86.	28149	M/s. Peacock Advisories Private Limited.
62.	27912	M/s. Mahajana Trade Credits Private Limited.	87.	28153	M/s. CMC Soapdet Private Limited.
63.	27927	M/s. Arvi Sximp Private Limited.	88.	28178	M/s. Akshaya Bakers & Processors Private Limited.
			89.	28184	M/s. A. K. Impex Private Limited.
			90.	28199	M/s. BMN Exports Private Limited.

1	2	3	1	2	3
91.	28241	M/s. Bagavathiamman Chits Funds Private Limited.	119.	28512	M/s. Senthil Andaver Engineering & Agency Private Limited.
92.	28244	M/s. Happy Stay Inns Private Limited.	120.	28516	M/s. Hi Sea Imex Private Limited.
93.	28256	M/s. Sree Hariguru Garments (Madras) Private Limited.	121.	28517	M/s. Vee Aqua Farms Private Limited.
94.	28270	M/s. TVK-Maxroi Finance & Consultants Private Limited.	122.	28536	M/s. Tamilnadu Gas Private Limited.
95.	28274	M/s. Oasis Seafoods Private Limited.	123.	28539	M/s. Vedagiri Visalakshi Agricultural Research & Development Consordium Private Limited.
96.	28305	M/s. Bansoi Leathers Private Limited.	124.	28548	M/s. Mag Granites Private Limited.
97.	28306	M/s. Rajee Apparels (Madras) Private Limited.	125.	28557	M/s. Sree Packialakshmi Chit Funds Private Limited.
98.	28319	M/s. Chakra Raja Real Estates Private Limited.	126.	28563	M/s. Prabhat Chits (Madras) Private Limited.
99.	28328	M/s. Vekkaiamman Chits Private Limited.	127.	28571	M/s. Radhaa Rani Spinners Private Limited.
100.	28343	M/s. Bodi Sri Laxmi Ganesh Chit Funds Private Limited.	128.	28573	M/s. Prarthana Leathers Private Limited.
101.	28344	M/s. Prashanti Engineering and Exports Private Limited.	129.	28598	M/s. Mercury Securities Private Limited.
102.	28352	M/s. Little Flowers Finance Company Private Limited.	130.	28601	M/s. Madras Fibre Products Private Limited.
103.	28358	M/s. Indo-Phil Exim Private Limited.	131.	28603	M/s. Jenni Food Products Private Limited.
104.	28359	M/s. Veeyen Granites Private Limited.	132.	28610	M/s. Archana's Poly Marketing Private Limited.
105.	28360	M/s. Manase Irrigation Equipment Private Limited.	133.	28627	M/s. Golden Meadows Private Limited.
106.	28380	M/s. Kavi Footwears Private Limited.	134.	28630	M/s. Al Aftab Hosiery Private Limited.
107.	28381	M/s. Kumaran Trading Company Private Limited.	135.	28631	M/s. Nellai Raajandra Finance Private Limited.
108.	28387	M/s. G. K. Aqua Products Private Limited.	136.	28637	M/s. CBM Exports Private Limited.
109.	28388	M/s. Bodi Sri Renga Andal Chit Funds Private Limited.	137.	28640	M/s. Coco-Lime Plantations Private Limited.
110.	28392	M/s. Southern General Merchandise Company Private Limited.	138.	28660	M/s. SBR Fine Chemicals Private Limited.
111.	28396	M/s. Nachu Chits Private Limited.	139.	28661	M/s. Lippo Marine Products Private Limited.
112.	28404	M/s. Sri Amarappan Food Products Private Limited.	140.	28685	M/s. Lifeguard Medical Diagnostic Centre Private Limited.
113.	28416	M/s. Sri Suckra Agency Private Limited.	141.	28699	M/s. GNR Exim Private Limited.
114.	28446	M/s. Delta Chits (Madras) Private Limited.	142.	28700	M/s. Merlin Placement Services Private Limited.
115.	28484	M/s. Leera Financial Consultancy Private Limited.	143.	28701	M/s. Excel Shipping Agencies Private Limited.
116.	28490	M/s. G. P. Creations Private Limited.	144.	28728	M/s. Mars Castings Private Limited.
117.	28491	M/s. Aajkal Exports Private Limited.	145.	28745	M/s. Shivlokh Prints Private Limited.
118.	28508	M/s. Green Park Farms Private Limited.	146.	28764	M/s. C-Tech Electronics (India) Private Limited.

1	2	3	1	2	3
147.	29012	M/s. Verge Farms Private Limited.	176.	29346	M/s. Fashion Washing Private Limited.
148.	29022	M/s. Venus Pharma Private Limited.	177.	29348	M/s. Jyothi Agtak Industries Private Limited.
149.	29062	M/s. V.A.T. Aqua Farms Private Limited.	178.	29378	M/s. Our Ladys Publishers Private Limited.
150.	29067	M/s. Nelfin Agro Products Private Limited.	179.	29388	M/s. Bulvis Finance & Estates Private Limited.
151.	29068	M/s. Yessar Securities Private Limited.	180.	29408	M/s. Renuka Impex Private Limited.
152.	29069	M/s. J. J. Super Cements (Ariyalur) Private Limited.	181.	29428	M/s. M. K. Farms & Resorts Private Limited.
153.	29094	M/s. MSC Export Private Limited.	182.	29429	M/s. Subhadra Finance and Credit Private Limited.
154.	29100	M/s. Meemahs Plastics Private Limited.	183.	29435	M/s. Saraswathi Credits Private Limited.
155.	29101	M/s. Agma Seafoods Private Limited.	184.	29448	M/s. Engineering Equipment Works (Madras) Private Limited.
156.	29103	M/s. Ever Best Finance Private Limited.	185.	29451	M/s. J. S. Heritage Resorts Private Limited.
157.	29111	M/s. KJM Aqua Hatchery Private Limited.	186.	29475	M/s. Alagappa Financial Services Private Limited.
158.	29123	M/s. Blue Sea Marine Services Private Limited.	187.	29477	M/s. Sharon Farms Private Limited.
159.	29124	M/s. Super Duper TV Private Limited.	188.	29497	M/s. Aditya Components Private Limited.
160.	29157	M/s. Vinayaga Housing & Plantation Company Private Limited.	189.	29498	M/s. Akash Communications Private Limited.
161.	29194	M/s. Yogi Impex Private Limited.	190.	29514	M/s. Patnam Chemicals Private Limited.
162.	29197	M/s. Sri Uppili Chit Fund Private Limited.	191.	29521	M/s. Hosia Import & Export Private Limited.
163.	29199	M/s. Boses Integrated Farm Private Limited.	192.	29543	M/s. Clarins Soaps Private Limited.
164.	29213	M/s. Vijaya MRI Private Limited.	193.	29544	M/s. Anu Builders Private Limited.
165.	29214	M/s. Path Finder Financial Services (Madras) Private Limited.	194.	29591	M/s. Leo Holdings Private Limited.
166.	29215	M/s. Aura Marketing Private Limited.	195.	29594	M/s. ARS Garments Private Limited.
167.	29227	M/s. Chiples Engineers Private Limited.	196.	29596	M/s. Shree Sakthi Securities Private Limited.
168.	29232	M/s. G. K. LPG Company Private Limited.	197.	29619	M/s. Translanka Tours and Travels Private Limited.
169.	29234	M/s. Deepthi Coir Industries Private Limited.	198.	29621	M/s. S. P. S. Minerals Private Limited.
170.	29239	M/s. Citizens Team (Contractors & Real Estate) Private Limited.	199.	29628	M/s. Sree Saila Aqua Farms Private Limited.
171.	29254	M/s. Roll On Engineers Private Limited.	200.	29629	M/s. Ali & Ali All India Transport Private Limited.
172.	29319	M/s. Rathnam Fabrics Exports Private Limited.	201.	29641	M/s. Yes Yes Herbal Products Private Limited.
173.	29321	M/s. Skyline Finance and Investments Private Limited.	202.	29646	M/s. Gentleman Lottery Agencies Private Limited.
174.	29327	M/s. Argus Graphics Vision Private Limited.			
175.	29344	M/s. Zen Power Electronics Private Limited.			

1	2	3	1	2	3
203.	29648	M/s. Mannai T. M. R. Chits Private Limited.	231.	35169	M/s. Thirumurga Kadmathur Benefit Fund Limited.
204.	29667	M/s. V. N. Aqua Food Private Limited.	232.	35177	M/s. Tarz Tele Networks Limited.
205.	29693	M/s. Sowram Finance Private Limited.	233.	35182	M/s. Enarai Ribbons Private Limited.
206.	29721	M/s. SPM Hotels Enterprises Private Limited.	234.	35183	M/s. Protrip Engineering Private Limited.
207.	29819	M/s. Atalaya Finance & Securities Private Limited.	235.	35197	M/s. Sathish Great Gift (Teak) Private Limited.
208.	29833	M/s. Pearlcity Cinema Company Private Limited.	236.	35200	M/s. Meenambika Finance Limited.
209.	29866	M/s. AL Fatah Travels Private Limited.	237.	35205	M/s. J. P. V. Papers & Boards Private Limited.
210.	29876	M/s. Evershine Shipping Agency Private Limited.	238.	35206	M/s. Rockvin Exports Private Limited.
211.	29879	M/s. Periyavar Finance and Leasing Private Limited.	239.	35212	M/s. Vetrivel Benefit Fund Limited.
212.	29933	M/s. Prinu Multi Media Private Limited.	240.	35225	M/s. E. S. Carriers Private Limited.
213.	29940	M/s. Merlyn Stock and Shares Private Limited.	241.	35231	M/s. Bhairav Seafoods Private Limited.
214.	29972	M/s. Monami Exports Private Limited.	242.	35240	M/s. Growmax Investment Credits Private Limited.
215.	29973	M/s. Index Financial Services Private Limited.	243.	35244	M/s. Yaghuna Finance Limited.
216.	29998	M/s. Bull Marku Investments Private Limited.	244.	35248	M/s. Peeakk Communications Private Limited.
217.	32990	M/s. Srivari Plastics Private Limited.	245.	35250	M/s. Madras Resino Products Private Limited.
218.	35020	M/s. IGGI Hometels Limited.	246.	35262	M/s. Geeyes Aqua Culture Private Limited.
219.	35032	M/s. MA Contact Club Private Limited.	247.	35271	M/s. Cathy Marine Foods Private Limited.
220.	35039	M/s. Dhanwantri Medical Research Institute Limited.	248.	35287	M/s. Concord Roadways Private Limited.
221.	35041	M/s. Veetec Pharma Private Limited.	249.	35291	M/s. Loghalaya Benefit Fund Limited.
222.	35092	M/s. Rakkesh Marketing Private Limited.	250.	35308	M/s. Shiv Sakti Machines Private Limited.
223.	35093	M/s. Pril Couriers Private Limited.	251.	35309	M/s. Bokadia Polytech Private Limited.
224.	35100	M/s. Suresh Financial Services Private Limited.	252.	35310	M/s. Chiraiya Metals & Polymers Private Limited.
225.	35113	M/s. G. S. P. Foods and Exports Private Limited.	253.	35327	M/s. Greenway Chits Private Limited.
226.	35115	M/s. Warriar Ayurvedic Nursing Home Private Limited.	254.	35330	M/s. Meenakshi Investment Services Private Limited.
227.	35118	M/s. Auravind Oxygen Company Private Limited.	255.	35341	M/s. Kuringi Plantations Private Limited.
228.	35127	M/s. Zoom Vision Private Limited.	256.	35375	M/s. Sri Venkatalakshmi Dairy Farms Private Limited.
229.	35134	M/s. Whaun Stocks and Investments Limited.	257.	35384	M/s. Jai Sun Diamond Private Limited.
230.	35141	M/s. Hawk Engines Private Limited.	258.	35386	M/s. Sree Sairam Krafts Private Limited.
			259.	35395	M/s. Hi-Tech Power Laundry Private Limited.
			260.	35400	M/s. Sree Kamalesh Agri Development Private Limited.

1	2	3	1	2	3
261.	35406	M/s. Vision Construction Private Limited.	291.	35780	M/s. Aaarti Exports Private Limited.
262.	35408	M/s. Manasarover Farms Private Limited.	292.	35784	M/s. Bommadech Agro Private Limited.
263.	35439	M/s. Graphics India Private Limited.	293.	35795	M/s. Hotel Kodai Breeze Private Limited.
264.	35444	M/s. Moorthy Pharma Traders Private Limited.	294.	35797	M/s. Best Bond Welding Rods Private Limited.
265.	35448	M/s. JM Fern Estates Private Limited.	295.	35808	M/s. Vajara Rock Private Limited.
266.	35465	M/s. VXL Chits (Madras) Private Limited.	296.	35810	M/s. South India Pensioners Protections Fund Limited.
267.	35475	M/s. Adonis Apparels and Merchandise Private Limited.	297.	35814	M/s. Senior Citizens Saaswatha Sahaya Fund Limited.
268.	35500	M/s. Seventh Sensesoftware and Services Private Limited.	298.	35823	M/s. Karthic Quarries Private Limited.
269.	35501	M/s. Hi Trim Dkecors Private Limited.	299.	35830	M/s. Encar Chits Private Limited.
270.	35511	M/s. Hill Park Granites Private Limited.	300.	35836	M/s. Kayeh Marketing (India) Private Limited.
271.	35517	M/s. Raj Auto Finance (Madurai) Private Limited.	301.	35843	M/s. Genstar Power India Limited.
272.	35523	M/s. Intech Power Utilities (India) Limited.	302.	35855	M/s. Snobol Computers Private Limited.
273.	35530	M/s. R. A. R. P. Chits Private Limited.	303.	35856	M/s. PC Tech (India) Private Limited.
274.	35531	M/s. Passion Fruit Gardens Private Limited.	304.	35861	M/s. Nelson Clubs & Resorts Private Limited.
275.	35534	M/s. Face Consultants Private Limited.	305.	35869	M/s. Ungal Chits Private Limited.
276.	35535	M/s. V. V. Trade Links Private Limited.	306.	35879	M/s. Sowharda Systems Private Limited.
277.	35540	M/s. Aple Films Private Limited.	307.	35889	M/s. Chaz Furniture Systems Private Limited.
278.	35552	M/s. Vijayaratna Farms Private Limited.	308.	35901	M/s. Sumuktha Properties Private Limited.
279.	35568	M/s. Kelleys Chit Fund Private Limited.	309.	35906	M/s. Prabha Homes Private Limited.
280.	35569	M/s. Sree Meera Creations Private Limited.	310.	35912	M/s. Fousiya Constructions Private Limited.
281.	35589	M/s. New Golden Resorts Private Limited.	311.	35918	M/s. Vasantha Boomi Promoters Private Limited.
282.	35590	M/s. Thiruvicraman Chit Funds Private Limited.	312.	35937	M/s. Maha Export Private Limited.
283.	35593	M/s. K.T.N. Sea Foods Private Limited.	313.	35946	M/s. Pushpa Chits (Madras) Private Limited.
284.	35595	M/s. Deepak Builders Private Limited.	314.	35947	M/s. MC Carthy Cold Storage Private Limited.
285.	35700	M/s. Good Shepherd Goats Private Limited.	315.	35948	M/s. L. Sakkaram Textile Private Limited.
286.	35708	M/s. Saravana Agro Products Private Limited.	316.	35968	M/s. Amoga Holdings Private Limited.
287.	35735	M/s. Surya Foundations Private Limited.	317.	35970	M/s. A. T. Leather & Chemicals Private Limited.
288.	35758	M/s. Rasi Energy System (Madras) Private Limited.	318.	35976	M/s. JMK Resorts and Projects (India) Private Limited.
289.	35778	M/s. Kasgo Food Exports Private Limited.	319.	35981	M/s. Hikma Medicals Private Limited.
290.	35779	M/s. Mayura Tours and Travels (Madras) Private Limited.			

1	2	3	1	2	3
320.	35989	M/s. Sri Durga Cabs Private Limited.	346.	36120	M/s. Soletti Bhadra Constructions Private Limited.
321.	35997	M/s. In-Toon Entertainment Private Limited.	347.	36121	M/s. Maswell Amuzes & Green Land Private Limited.
322.	36002	M/s. Arun Hire Purchase & Leasing (Madras) Private Limited.	348.	36123	M/s. Soletti Bhadra Polymers Private Limited.
323.	36007	M/s. Supriya Suspension Product Private Limited.	349.	36133	M/s. Sree Vignam Chit Fund Private Limited.
324.	36009	M/s. Navarathina Leasing Company Private Limited.	350.	36137	M/s. Jewel Monarch Private Limited.
325.	36014	M/s. Sri Adi Bhagavathy Finance & Investment Private Limited.	351.	36151	M/s. Oceanis Resorts Madras Private Limited.
326.	36017	M/s. Rajvijay Properties & Investments Private Limited.	352.	36153	M/s. Gnanam Benefit Fund Limited.
327.	36025	M/s. Ganesh Dairy Farms Private Limited.	353.	36156	M/s. Mercury Information Services Private Limited.
328.	36029	M/s. Sholinghur Livestock Company Private Limited.	354.	36172	M/s. Devanesan Farms Private Limited.
329.	36032	M/s. Udhayam Foundations Private Limited.	355.	36176	M/s. Anutham Finance Private Limited.
330.	36042	M/s. Riches & Cliff Advertising and Communications Limited.	356.	36179	M/s. Muthuraj Chits Private Limited.
331.	36047	M/s. Nu-Pro Foods Private Limited.	357.	36180	M/s. Breeze Chit Funds Private Limited.
332.	36054	M/s. Victory Chits (Madras) Private Limited.	358.	36185	M/s. Tony Advertising Private Limited.
333.	36061	M/s. Balamangalam Finance & Investments Private Limited.	359.	36190	M/s. Kumbha Stocks & Bonds Private Limited.
334.	36062	M/s. Yantra Graphics Private Limited.	360.	36198	M/s. Korin Plastics Private Limited.
335.	36064	M/s. Arunesh Benefit Fund Limited.	361.	36201	M/s. Sapani Finlease Private Limited.
336.	36067	M/s. Tangent Marketing Network Private Limited.	362.	36203	M/s. Anitha Tooling & Components Private Limited.
337.	36079	M/s. G. C. P. Credits and Investments Private Limited.	363.	36204	M/s. Sriraj Minerals & Granites Private Limited.
338.	36080	M/s. Calvin Homes Private Limited.	364.	36205	M/s. Adapt Advertising Private Limited.
339.	36081	M/s. P.N.K. Trades Private Limited.	365.	36209	M/s. Novena Press Limited.
340.	36084	M/s. Vanguard Power Private Limited.	366.	36223	M/s. Sun Estate (Koda) Private Limited.
341.	36088	M/s. Classic Milk Food Limited.	367.	36224	M/s. Helan-Ruban Horticultures Country Club Limited.
342.	36089	M/s. S. S. Equites Private Limited.	368.	36225	M/s. New-Ed Publications & Communications Limited.
343.	36090	M/s. Novena Foods and Proteins Private Limited.	369.	36230	M/s. Srinivas Promoters Private Limited.
344.	36092	M/s. Ayya Thunai Body Builders Private Limited.	370.	36236	M/s. Thichurichy Finance and Investments Private Limited.
345.	36099	M/s. VSM Flori Exports and Imports Private Limited.	371.	36245	M/s. Maxworth Township Services Private Limited.
			372.	36255	M/s. Sumolexpipes Private Limited.
			373.	36271	M/s. V.L.B. Chits Private Limited.
			374.	36280	M/s. Laxmi Color Crayons Private Limited.

1	2	3
375.	36285	M/s. Check-in Travels and Tours Private Limited.
376.	36289	M/s. Lotus Roadways Limited.
377.	36305	M/s. Karpaga Vinayagar Exports & Imports Private Limited.
378.	36313	M/s. Kodai Temple Tower Farms & Resorts Private Limited.
379.	36330	M/s. Taurus International Private Limited.
380.	36331	M/s. V. C. C. Housing Finance Private Limited.
381.	36338	M/s. Zurich Exports Private Limited.
382.	36345	M/s. ABD Trade Link India Private Limited.
383.	36349	M/s. Finaman Holdings Limited.
384.	36362	M/s. Velanganni Resorts Private Limited.
385.	36365	M/s. Mapex Finance Private Limited.
386.	36367	M/s. Mangalam Foundations Private Limited.
387.	36380	M/s. Southern Products Private Limited.
388.	36389	M/s. Horizon ITL Limited.
389.	36393	M/s. Kathiravan Hotels and Resorts Private Limited.
390.	36396	M/s. S.S.V. Chemicals Private Limited.
391.	36397	M/s. Fab Leather Garments Private Limited.
392.	36401	M/s. Kraft Office Systems Private Limited.
393.	36403	M/s. Nanayam Chit Funds Private Limited.
394.	36407	M/s. Prince Greenland Farms and Resorts Private Limited.
395.	36415	M/s. Zenith Royal Exports Private Limited.
396.	36451	M/s. Lifetrust Orchards Private Limited.
397.	36457	M/s. Adithya Sai Dev Exports Private Limited.
398.	36462	M/s. Angel Textiles Private Limited.
399.	26466	M/s. Klassic Cards Private Limited.
400.	36473	M/s. Able Bulk Mailers Private Limited.
401.	36477	M/s. J.T.H. Steel & Wire Products Private Limited.
402.	36483	M/s. Sri Balaji Process (Madras) Private Limited.
403.	36488	M/s. Carcentre Finance and Investments Private Limited.

1	2	3
404.	36491	M/s. Sri Krishna Properties Madras Private Limited.
405.	36494	M/s. Seven Hills Pictures Private Limited.
406.	36505	M/s. P.R.K. Engineering Private Limited.
407.	36509	M/s. Maxflex Rubber Private Limited.
408.	36534	M/s. Madras Solar Agro Plantations Private Limited.
409.	36538	M/s. Chryst Exports (Madras) Private Limited.
410.	36539	M/s. Dalavoi Resorts Private Limited.
411.	36544	M/s. Thanushika Builders Private Limited.
412.	36555	M/s. Panchavarneshvara Consumer Services & Shopping Network Private Limited.
413.	36558	M/s. Vetha Nayagam Finance and Investments Private Limited.
414.	36576	M/s. Thayamma Chit Funds Private Limited.
415.	36577	M/s. Core Bio Products Private Limited.
416.	36578	M/s. Vaishnavi Farms Private Limited.
417.	36580	M/s. Gnanaraj Resorts Private Limited.
418.	36589	M/s. Mohaideen Estates Private Limited.
419.	36596	M/s. Arivaham Chits Private Limited.
420.	36600	M/s. Roadmaster Agencies Private Limited.
421.	36601	M/s. Sree Brindavan Steel Rolling Mills Private Limited.
422.	36605	M/s. Hotel Holiday India Limited.
423.	36613	M/s. Balind Constructions Private Limited.
424.	36628	M/s. Nizam Agencies & Distributors Private Limited.
425.	36631	M/s. Sri Guru Theatres Private Limited.
426.	36636	M/s. V.J.S. Engineering Private Limited.
427.	36638	M/s. Aanak Hi-Tech Engineers Private Limited.
428.	36651	M/s. V.K.R. Real Estate Private Limited.
429.	36656	M/s. Vasanth Ram Builders Private Limited.
430.	36659	M/s. Carol Leathers Private Limited.
431.	36666	M/s. Mercy Export & Import Private Limited.
432.	36672	M/s. Meditex Human Resources Limited.

1	2	3	1	2	3
433.	36696	M/s. M.D.V. Technologies Private Limited.	461.	36838	M/s. Best Security Systems Private Limited.
434.	36701	M/s. Intormed Laboratories Private Limited.	462.	36849	M/s. Excel Express India Private Limited.
435.	36703	M/s. Megastone Shelters Private Limited.	463.	36852	M/s. Enimai Homes India Private Limited.
436.	36704	M/s. Vamsheedar Constructions Private Limited.	464.	36857	M/s. Shridwarakamai Properties (India) Limited.
437.	36713	M/s. Maps Housing Private Limited.	465.	36859	M/s. Sirungeri Sharada Finance Private Limited.
438.	36715	M/s. Crom Entertainment Private Limited.	466.	36862	M/s. Scadds Nucleus (India) Private Limited.
439.	36716	M/s. Pushpam Spinning Mills Private Limited.	467.	36874	M/s. Madras Klassik Engineers Private Limited.
440.	36729	M/s. Haddows Country Club Private Limited.	368.	36877	M/s. Eshan Holding Limited.
441.	36735	M/s. Kayem Knitters Private Limited.	469.	36879	M/s. Levin Polymers Private Limited.
442.	36742	M/s. Sri Hayagreevaa Builders Private Limited.	470.	36906	M/s. Machfab Engineering Private Limited.
443.	36743	M/s. Thillai Sura Chit Funds Private Limited.	471.	36910	M/s. Shakilaa Shipping Cargo Service Private Limited.
444.	36747	M/s. Canny Ipex Private Limited.	472.	36915	M/s. South Indian Real Estate Company (Madurai) Private Limited.
445.	36754	M/s. Balass Informatic Consultancy Private Limited.	473.	36919	M/s. Neidal Properties Private Limited.
446.	36757	M/s. Vruksha Systems Private Limited.	474.	36923	M/s. TGT Chits Private Limited.
447.	36764	M/s. Vruksha Cars Limited.	475.	36927	M/s. Oasis Goat Farms Private Limited.
448.	36768	M/s. Shine Chemicals Private Limited.	476.	36934	M/s. Investment Enterprises Private Limited.
449.	36782	M/s. Abinesh Finance & Investment Private Limited.	477.	36935	M/s. Sree NTN Chits Private Limited.
450.	36785	M/s. Devasena Developers & Enterprises Private Limited.	478.	36955	M/s. Digital Magic Multimedia Solutions Private Limited.
451.	36791	M/s. Kewal Enterprises Private Limited.	479.	36957	M/s. Amity Rubber Moldings Private Limited.
452.	36803	M/s. Madhunika Finance & Investments Private Limited.	480.	36974	M/s. Jeyamangala Agro Farms Private Limited.
453.	36804	M/s. Hotemas Finance Private Limited.	481.	36975	M/s. Silattur Shri Ram Agro Farms Private Limited.
454.	36807	M/s. Malar Financial Consultants (Madras) Private Limited.	482.	36984	M/s. Hundiya Agro Products Limited.
455.	36813	M/s. Noah Builders & Promoters Private Limited.	483.	36985	M/s. M. K. Holdings (India) Private Limited.
456.	36815	M/s. Upala Properties & Investments Private Limited.	484.	36989	M/s. Rajgokil Constructions Private Limited.
457.	36822	M/s. K. A. Systems Private Limited.	485.	36991	M/s. Imperial Gold House Private Limited.
458.	36823	M/s. Enmaarck Builders Private Limited.	486.	36994	M/s. Kodai Gayathri Property Developers Private Limited.
459.	36830	M/s. Priyanka Merchant Financing Limited.	487.	37002	M/s. Scenario Softcom Private Limited.
460.	36832	M/s. Kodai Gate Resort Hotels (India) Private Limited.			

1	2	3
488.	37003	M/s. M.T. Kannan Hari Agro Farm Private Limited.
489.	37004	M/s. Seablue Nets Private Limited.
490.	37005	M/s. Baridhra and Hasit Laboratories Private Limited.
491.	37013	M/s. Inland Menforceves & Business Services Private Limited.
492.	37015	M/s. Masha Granites & Mineral Exports Private Limited.
493.	37017	M/s. Purejenta Jewel Crest Private Limited.
494.	37019	M/s. Maharath Impex Private Limited.
495.	37020	M/s. Sree Meenakshi Farms and Resorts Private Limited.
496.	37032	M/s. Ansh Communications Private Limited.
497.	37036	M/s. Cheran Signs (India) Private Limited.
498.	37041	M/s. Sharada Institute of Marketing Management Private Limited.
499.	37047	M/s. Thirumuruga Chit Funds (Madras) Private Limited.
500.	37055	M/s. Vajeyanthi Fine Apparels Private Limited.
501.	37057	M/s. Golden Harvest Agrofarm (Madras) Private Limited.
502.	37059	M/s. Subhlakshmi International Private Limited.
503.	37075	M/s. Agri-LVM Impex Private Limited.
504.	37076	M/s. Sri Meenakshisundaram Mills Private Limited.
505.	37077	M/s. Shanraj Agro Foods Private Limited.
506.	37084	M/s. Melior Export Private Limited.
507.	37086	M/s. Seine Seizures and Ware Housing Private Limited.
508.	37088	M/s. Nashan Exports Private Limited.
509.	37091	M/s. St. Michel Finance Private Limited.
510.	37098	M/s. Southeaven Property Developers India Private Limited.
511.	37099	M/s. Rockware Exports India Private Limited.
512.	37137	M/s. Dyna Comp Information Technologies Private Limited.
513.	37138	M/s. Chennai Estates & Constructions Private Limited.

1	2	3
514.	37143	M/s. Flare Traders Private Limited.
515.	37147	M/s. Eifle Finance Limited.
516.	37157	M/s. Vasanthavana Farm Investments Private Limited.
517.	37158	M/s. Flyworld Travels Private Limited.
518.	37166	M/s. Jaya Sree Finance Private Limited.
519.	37172	M/s. Arctic Air Engineers & Contractors Private Limited.
520.	37173	M/s. Suva Dharma Chit Funds Private Limited.
521.	37176	M/s. Vital Care Private Limited.
522.	37177	M/s. Lakshmi Gold Ornaments Private Limited.
523.	37185	M/s. VST Financial Services Private Limited.
524.	37186	M/s. Locus Classicus Aviation Private Limited.
525.	37192	M/s. Navkaar Agro & Resorts Private Limited.
526.	37197	M/s. Rajali Benefit Fund Limited.
527.	37214	M/s. UCFS Cargo (India) Private Limited.
528.	37237	M/s. Coyates Textiles Mills Private Limited.
529.	37238	M/s. Viva Baskar Enterprises (Madras) Private Limited.
530.	37274	M/s. Athirai Chits Private Limited.
531.	37286	M/s. Origin Control Systems Private Limited.
532.	37297	M/s. Rich Orchards and Plantations Private Limited.
533.	37315	M/s. Chennai Couriers Private Limited.
534.	37343	M/s. Devsan Plantations and Developers (India) Private Limited.
535.	37346	M/s. Saravana (Chidambaram) Benefit Fund Limited.
536.	37373	M/s. K. M. Silk Exports (India) Private Limited.
537.	37391	M/s. Viswaraj Chits Private Limited.
538.	37401	M/s. Cognoscenti Fin. Serv. Private Limited.
539.	37419	M/s. Prechel Transports Private Limited.
540.	37421	M/s. Maana Veera Vazha Nadu Benefit Fund Private Limited.

1	2	3
541.	37427	M/s. Taurus Medi Systems Private Limited.
542.	37446	M/s. Dynasty Foundations Private Limited.
543.	37480	M/s. Kriya Finlease Private Limited.
544.	37483	M/s. ATR Finance and Investments Private Limited.
545.	37489	M/s. Minakshi Realtors & Properties Private Limited.
546.	37493	M/s. Romel (India) Limited.
547.	37500	M/s. Jai Property Developers Private Limited.
548.	37502	M/s. Tarun Shopping Network Private Limited.
549.	37504	M/s. Rehna Seafoods Exports Private Limited.
550.	37516	M/s. Victory Bakes Private Limited.
551.	37520	M/s. Annai Plastic Private Limited.
552.	37521	M/s. Vigneswara Roller Flour Mills Private Limited.
553.	37523	M/s. Solar Shade Nets Private Limited.
554.	37527	M/s. Praja Investments Private Limited.
555.	37528	M/s. J.V.M. Containers Private Limited.
556.	37534	M/s. Dynamic Fabrotech Private Limited.
557.	37535	M/s. Baburaj Builders and Contractors Private Limited.
558.	37540	M/s. Piccadilly Club & Resorts (Chennai) Limited.
559.	37546	M/s. KMR Exim Private Limited.
560.	37553	M/s. Magnificent Sheet Metal Private Limited.
561.	37561	M/s. Chennai Chemtek Water Proofing Private Limited.
562.	37574	M/s. Decorative Creations Private Limited.
563.	37578	M/s. Thangamalar Film Private Limited.
564.	37595	M/s. A & A Granites Private Limited.
565.	37600	M/s. S & C Gears Private Limited.
566.	37608	M/s. Yuva Bharathy Consultancy Services Private Limited.
567.	37628	M/s. Eswar Computers Private Limited.
568.	37644	M/s. Chinpet Polymers Private Limited.
569.	37651	M/s. Zac Food Products Private Limited.

1	2	3
570.	37671	M/s. Indo-American Environmental Management Private Limited.
571.	37672	M/s. Griha Lakshmi Chits Private Limited.
572.	37694	M/s. Ayyanar Plantations Private Limited.
573.	37703	M/s. N.P.R. Engineers and Fabricators Private Limited.
574.	37704	M/s. Shree Boomadhevi Chit Private Limited.
575.	37706	M/s. Sun Sweet Homes (Madurai) Private Limited.
576.	37720	M/s. Sidharth Hire-Purchase Private Limited.
577.	37777	M/s. Arthi Impex (India) Limited.
578.	37779	M/s. Bagavathi Homes India Private Limited.
579.	37784	M/s. Tremendous Finlease Private Limited.
580.	37798	M/s. Vis-a-Vis Advanced Advertisers (India) Private Limited.
581.	37831	M/s. Udhayam Couriers Private Limited.
582.	37835	M/s. Regency Square Exports (Chennai) Private Limited.
583.	37836	M/s. Fair Deal Forex Services Private Limited.
584.	37854	M/s. Sri Kamala General Traders Private Limited.
585.	37867	M/s. Osborne Chemicals Private Limited.
586.	37877	M/s. Alwar Credit Finance India Limited.
587.	37881	M/s. S. J. Garments Exports (Chennai) Private Limited.
588.	37890	M/s. Infolabs Software Limited.
589.	37893	M/s. Ashirwad Foods Private Limited.
590.	37899	M/s. Mother Miraa Infotech Private Limited.
591.	37900	M/s. Nivas Computers Training Institute Private Limited.
592.	37915	M/s. Mother Earth Farms & Exports Private Limited.
593.	37916	M/s. Barakath Tours & Travels (Chennai) Private Limited.
594.	37917	M/s. Deephole Drilling Systems and Tools Private Limited.
595.	37919	M/s. Paanum Manpower & Exports Private Limited.

1	2	3	1	2	3
596.	37924	M/s. Sasuki Agro Farms & Resorts Private Limited.	623.	38163	M/s. Tirunelveli Agro Development Services Private Limited.
597.	37941	M/s. Aces Exports Private Limited.	624.	38167	M/s. Chennai Krishna Constructions Private Limited.
598.	37953	M/s. Sun-Glow Express Courier Private Limited.	625.	38177	M/s. Rarr Promoters and Developers Private Limited.
599.	37954	M/s. G.S.S. Finance Private Limited.	626.	38179	M/s. Super Marine Exports Private Limited.
600.	37958	M/s. Aries Resorts Private Limited.	627.	38185	M/s. Arivalaya Chits Private Limited.
601.	37960	M/s. RJ & R Power Appliances Private Limited.	628.	38193	M/s. Kalandi Export Private Limited.
602.	37969	M/s. G.P.R. Management Services Private Limited.	629.	38195	M/s. Heatmech Automotive Private Limited.
603.	37978	M/s. Sky Sea Computers Private Limited.	630.	38201	M/s. Vijayabanu Exports & Imports Private Limited.
604.	37992	M/s. Hari Brick Private Limited.	631.	38233	M/s. Archanna Enterprise (Theni) Private Limited.
605.	37993	M/s. Ebenezer Calcium Private Limited.	632.	38225	M/s. Irsha Exports Private Limited.
606.	38006	M/s. Lakshmi Moneygrow India Limited.	633.	38227	M/s. Sri Maruthi Agencies Private Limited.
607.	38020	M/s. Field Point Electrical Engineering Private Limited.	634.	38253	M/s. Tara Star Exports Private Limited.
608.	38031	M/s. Anuga Foods Private Limited.	635.	39265	M/s. Bijan Finance Private Limited.
609.	38070	M/s. J. R. Agriculture & Engineering Projects Private Limited.	636.	38273	M/s. P. D. Mathai Milk & Dairy Projects Private Limited.
610.	38074	M/s. Jeneba Finance Private Limited.	637.	338279	M/s. Henrock Enterprises Private Limited.
611.	38084	M/s. Surya Gangai Chits Madras Private Limited.	638.	38282	M/s. M. M. Global Trading Private Limited.
612.	38088	M/s. Amoza Travel Services (Madras) Private Limited.	639.	38285	M/s. Loyal Milk Products Private Limited.
613.	38095	M/s. Sylvas Agrotech Private Limited.	640.	38295	M/s. Suki Equipments Private Limited.
614.	38100	M/s. Sri Guru Lakshmi Finance Private Limited.	641.	38297	M/s. Forte Imports & Exports Chennai Private Limited.
615.	38102	M/s. Leyna Travels Private Limited.	642.	38320	M/s. Gowri Padmam Chits Private Limited.
616.	38106	M/s. Puthukkottai Sri Suba Mangala Chit Fund Private Limited.	643.	38346	M/s. Hot-Line Marketing (Chennai) Private Limited.
617.	38111	M/s. Sukra Buildtech India Private Limited.	644.	38347	M/s. Toreito Technologies Private Limited.
618.	38113	M/s. Maruti Infotech & Management Services Private Limited.	645.	38359	M/s. Hi-Tech Metalware India Private Limited.
619.	38117	M/s. Ideal Chick Meat Packers Private Limited.	646.	38362	M/s. Sri Jayaganapathy Chits Private Limited.
620.	38133	M/s. Astraa Leathers Private Limited.	647.	38363	M/s. Fisons Data forms Private Limited.
621.	38142	M/s. Kadarkarai Chit Fund Private Limited.	648.	38380	M/s. Sashta Mineral Water Private Limited.
622.	38163	M/s. Bethel International Leasing and Financing Services Private Limited.	649.	38387	M/s. Vibro Hydraulic Equipment Private Limited.

1	2	3	1	2	3
650.	38403	M/s. P.D.R. Foods Private Limited.	676.	38554	M/s. Jayasree Chits (Kanyakumari) Private Limited.
651.	38411	M/s. Diplomat Country Club Private Limited.	677.	38611	M/s. Creative Business Services Private Limited.
652.	38417	M/s. Shanjho Caterer Private Limited.	678.	38618	M/s. Yucca Enterprises Private Limited.
653.	38418	M/s. Bambino Lake View Park Hotel and Resorts (India) Private Limited.	679.	38632	M/s. Sun Beam Agri-Tech Farm & Resorts Private Limited.
654.	38422	M/s. Tab Export and Import Private Limited.	680.	38633	M/s. Sithi Masala Private Limited.
655.	38425	M/s. Frontier Fabric Exports (Chennai) Private Limited.	681.	38646	M/s. Vibgyor Granites Private Limited.
656.	38426	M/s. South India Golf Adventures Private Limited.	682.	38648	M/s. Sima Travels Private Limited.
657.	38427	M/s. Olympic Tours & Travels (India) Private Limited.	683.	38651	M/s. Sujana Hotels Private Limited.
658.	38428	M/s. Swarna Bhoomi Chits Private Limited.	684.	38667	M/s. Dravidar Farms Private Limited.
659.	38430	M/s. Pegasus Infotech Services Private Limited.	685.	38671	M/s. Web Infotech Private Limited.
660.	38431	M/s. Acuity Marketing Services Private Limited.	686.	38672	M/s. A. R. Coffee Private Limited.
661.	38433	M/s. BSR.VMKN Finance & Investments Private Limited.	687.	38673	M/s. Coasters Hind Advertising Private Limited.
662.	38437	M/s. Venkataramanaa Constructions Private Limited.	688.	38685	M/s. Roland Properties Private Limited.
663.	38444	M/s. Pethhu Poly Pipes Private Limited.	689.	38686	M/s. RCS Chemicals Private Limited.
664.	38445	M/s. Ponn Aruvi Finance and Investments Private Limited.	690.	38689	M/s. Top Notch Marketing and Consultancy Services Private Limited.
665.	38458	M/s. V.G.I. (India) Private Limited.	691.	38702	M/s. V.K.R. Marketing Private Limited.
666.	38460	M/s. Quality Coal Private Limited.	692.	38704	M/s. Maharath Marine Private Limited.
667.	38477	M/s. Giant Crushers Private Limited.	693.	38705	M/s. Vardhaman Conductors Private Limited.
668.	38483	M/s. S.P.J. Air Travel Agency Private Limited.	694.	38724	M/s. Happy Home Constructions (Chennai) Private Limited.
669.	38497	M/s. Rajeev Foundations Private Limited.	695.	38728	M/s. Indhra Stones Private Limited.
670.	38500	M/s. M.N.K. Rubbers Private Limited.	696.	38740	M/s. APM Tours and Travels Private Limited.
671.	38509	M/s. Vibgyor Technologies India Private Limited.	697.	38742	M/s. Microtech Industries (Chennai) Private Limited.
672.	38510	M/s. Technosoft Systems (Chennai) Private Limited.	698.	38752	M/s. Bohra Textile Mills Private Limited.
673.	38526	M/s. Kali Systems Engineering India Limited.	699.	38753	M/s. Sri Andald Tanners Private Limited.
674.	38535	M/s. Chemserv Automation Private Limited.	700.	38759	M/s. Alice & Charles (India) Private Limited.
675.	38552	M/s. Anbukavery Promoters Private Limited.	701.	38763	M/s. Chennai Multi Trading Private Limited.
			702.	38764	M/s. Nataraj and Supriya Shares Private Limited.
			703.	38774	M/s. Trump Chits Private Limited.
			704.	38782	M/s. Safelec Components Private Limited.

1	2	3	1	2	3
705.	38787	M/s. DGM Exports Private Limited.	732.	38955	M/s. Swetalakshmi Exports Private Limited.
706.	38789	M/s. VMR Estates Private Limited.	733.	38957	M/s. Goodluck Abrasives (Chennai) Private Limited.
707.	38793	M/s. Fairway & Company (India) Private Limited.	734.	38968	M/s. Nizac Magnetics Private Limited.
708.	38794	M/s. Haran's Perfect Matchings Private Limited.	735.	38972	M/s. Lotus Alloys Private Limited.
709.	38795	M/s. Oppili Hi-Tech Engineers Private Limited.	736.	38973	M/s. Rohie Investment & Securities Private Limited.
710.	38803	M/s. Laksar Investments Private Limited.	737.	38981	M/s. Excellent Trading (Chennai) Private Limited.
711.	38804	M/s. All Seasons Tours & Travels (Chennai) Private Limited.	738.	38983	M/s. Alert Technologies India Private Limited.
712.	38811	M/s. Sathur Sri Selvamurugan Chits Private Limited.	739.	38986	M/s. D. K. & Sons Systems Private Limited.
713.	38814	M/s. Paamban Baba Housing Finance Private Limited.	740.	38987	M/s. Corner Stone Enterprises Private Limited.
714.	38815	M/s. GP Ind-Euro International Company Private Limited.	741.	38988	M/s. Saagi Homes Private Limited.
715.	38822	M/s. Nadhasha Chit Fund Private Limited.	742.	38993	M/s. Madurai Meenakshi Heritage Parks Private Limited.
716.	38828	M/s. Nitty Travels and Trades Private Limited.	743.	38994	M/s. Sriramdev Manufacturing Company Private Limited.
717.	38838	M/s. Uthamapalayam Sri Gurudev Chits Private Limited.	744.	38998	M/s. Daffodils Estates & Resorts (Kodaikanal) Private Limited.
718.	38842	M/s. Deepika Dairy Milk Private Limited.	745.	39000	M/s. Topline Exports Private Limited.
719.	38877	M/s. Arumai Appathangam Enterprises Private Limited.	746.	39007	M/s. Fortune Homes India Limited.
720.	38886	M/s. South Asian Trade Private Limited.	747.	39015	M/s. JVS Travel & Tours Private Limited.
721.	38890	M/s. Treasurelink Time Shares (Chennai) Private Limited.	748.	39021	M/s. Singa Property Developers Private Limited.
722.	38896	M/s. Singara Thottam Farms and Resorts Private Limited.	749.	39022	M/s. Bicassa Impex Private Limited.
723.	38898	M/s. Nandhini Parvach Overseas Services Private Limited.	750.	39034	M/s. SVN Computers Private Limited.
724.	38901	M/s. Sri Vari Ghrahaseva Private Limited.	751.	39035	M/s. Inma Electronic Manufacturers Private Limited.
725.	38904	M/s. Sri Devpriyan Earth Movers Private Limited.	752.	39064	M/s. Shabari Photo Consortium Private Limited.
726.	38912	M/s. Conquer Exports Private Limited.	753.	39069	M/s. Utility Foods and Facilities Private Limited.
727.	38921	M/s. S. P. J. Sun Shipping & Clearing Private Limited.	754.	39072	M/s. V. K. Tools Private Limited.
728.	38922	M/s. Sai Vinayaga Travels Private Limited.	755.	39109	M/s. Aruna Structurals Private Limited.
729.	38926	M/s. Telefield Services (Chennai) Private Limited.	756.	39113	M/s. Elysium Therapeutics Private Limited.
730.	38934	M/s. Sun Power Systems Private Limited.	757.	39118	M/s. Medicare Technology Private Limited.
731.	38937	M/s. AVT Forex India Private Limited.			

1	2	3
758.	39121	M/s. Cistech Consulting Private Limited.
759.	39130	M/s. Berg Exports Private Limited.
760.	39132	M/s. Arunmathi Chits Private Limited.
761.	39133	M/s. Vibgyor Metal Forging Private Limited.
762.	39142	M/s. Elakiya Foods Private Limited.
763.	39143	M/s. PMS Mines Private Limited.
764.	39147	M/s. Jerry Tec Private Limited.
765.	39159	M/s. Soorya Finance (Sivkasi) Private Limited.
766.	39168	M/s. T. R. B. Exports (India) Private Limited.
767.	39177	M/s. Jehovah Enterprises Private Limited.
768.	39178	M/s. Aptop Machine Matrix Private Limited.
769.	39182	M/s. A-One Sheet Farms Private Limited.
770.	39188	M/s. Cement Bricks India Private Limited.
771.	39196	M/s. Chennai Virgo Communications Private Limited.
772.	39203	M/s. Asiawide Resources Private Limited.
773.	39214	M/s. Greenways Media Services Private Limited.
774.	39217	M/s. Super Bricks Private Limited.
775.	39228	M/s. Sabari Spinning Mills Private Limited.
776.	39238	M/s. Rose Compcom Private Limited.
777.	39241	M/s. Sacs Concrete Piles Private Limited.
778.	39251	M/s. Pavitra Realtors Private Limited.
779.	39254	M/s. Jagadhguru Chemicals Private Limited.
780.	39273	M/s. DM Excel Engineers & Consultants Private Limited.
781.	39315	M/s. Data Infoworks Private Limited.
782.	39316	M/s. Srisailam Agro Exports Private Limited.
783.	39322	M/s. Bharani Agro Private Limited.
784.	39341	M/s. Nagai Resorts Private Limited.
785.	39350	M/s. Vaigai Impex Private Limited.
786.	39352	M/s. Thirumalai Balaji Chits Private Limited.
787.	39373	M/s. Infosoft Solutions Private Limited.

1	2	3
788.	39381	M/s. Kadathanad Chits Private Limited.
789.	39405	M/s. Shravan Apparels Private Limited.
790.	39412	M/s. Christ Exports and Imports Private Limited.
791.	39421	M/s. Shri Mahaganapathy Stocks Private Limited.
792.	39422	M/s. Millenium Farms and Properties Private Limited.
793.	39424	M/s. Transea Shipping Agencies (South) Private Limited.
794.	39428	M/s. Kannatha Chits Private Limited.
795.	39429	M/s. Maxell Properties & Maintenance Private Limited.
796.	39435	M/s. Rhombus Engineering Private Limited.
797.	39439	M/s. Vinayaga Vision Private Limited.
798.	39447	M/s. Network Automation Technologies Private Limited.
799.	39451	M/s. Horizon Chemical Colour Combines Private Limited.
800.	39453	M/s. Green Peace Travels Private Limited.
801.	39455	M/s. Aegis Azanim Private Limited.
802.	39458	M/s. Visva Blinds Private Limited.
803.	39484	M/s. SKL Technology Private Limited.
804.	39485	M/s. Sepros Institute of Firmware Technology Private Limited.
805.	39487	M/s. GR Concrete Blocks Private Limited.
806.	39500	M/s. Ramyas Finance Private Limited.
807.	39514	M/s. VGL Time Bound Consultancy Services Private Limited.
808.	39540	M/s. PRS Softech (India) Private Limited.
809.	39548	M/s. Manna Exporters Private Limited.
810.	39556	M/s. CSMA Systems & Solution Private Limited.
811.	39558	M/s. Vijayalakshmi Home Builders (Chennai) Private Limited.
812.	39572	M/s. Eureka Hatcheries Private Limited.
813.	39578	M/s. Al-Ibrahim Air Travles Private Limited.
814.	39580	M/s. Megastone Resorts & Exports Private Limited.
815.	39587	M/s. Shivshakti Powerchem Private Limited.

1	2	3
816.	39598	M/s. Gems Cambio Private Limited.
817.	39617	M/s. Edwin Chits Private Limited.
818.	39618	M/s. Narasimha Carto Pack Private Limited.
819.	39624	M/s. Propdrome Property Services Private Limited.
820.	39643	M/s. Alfscs Mira Bio-Tech Private Limited.
821.	39657	M/s. Speed Forex India Private Limited.
822.	39658	M/s. Rahem Forex India Private Limited.
823.	39661	M/s. Canary Clothing Private Limited.
824.	39662	M/s. Sri Sidhi Vinaayaga Chits Private Limited.
825.	39673	M/s. Selvashram Chits Private Limited.
826.	39679	M/s. Softpro Information Technology Private Limited.
827.	39680	M/s. JG Durametal India Private Limited.
828.	39686	M/s. Septagon Consultancy Private Limited.
829.	39689	M/s. Guru Dharshan Holiday Resorts Private Limited.
830.	39692	M/s. Perfect Enterprises Private Limited.
831.	39693	M/s. Vintech Computer Systems Private Limited.
832.	39702	M/s. Neeti Lifts Private Limited.
833.	39710	M/s. Harshini Constructions & Property Developers Private Limited.
834.	39720	M/s. Sri Vasanthkaveri Chits Private Limited.
835.	39739	M/s. Athreya Impex Private Limited.
836.	39771	M/s. Lar Shares Private Limited.
837.	39774	M/s. Quaker Financial Services Private Limited.
838.	39778	M/s. Satyasradha Chits Chennai Private Limited.
839.	39782	M/s. Chandy Minerals Exports Private Limited.
840.	39786	M/s. Shingha Trading Company Private Limited.
841.	39787	M/s. Aksm Rock India Private Limited.
842.	39791	M/s. Wahar Infotech Private Limited.
843.	39794	M/s. Kuk-Yil Enterprises Private Limited.

1	2	3
844.	39808	M/s. Chind Farm Equipments Private Limited.
845.	39813	M/s. Buildmaan Foundations Private Limited.
846.	39817	M/s. R. R. Shell Crafts Private Limited.
847.	39825	M/s. Al-Aziz Broiler Farms Private Limited.
848.	39830	M/s. Sesh Multimedia Private Limited.
849.	39846	M/s. Sri Hayavardhana Constructions Private Limited.
850.	39852	M/s. Kalbros Services Private Limited.
851.	39866	M/s. Azra Overseas Marketing Company Private Limited.
852.	39871	M/s. Organic Senna Producers Private Limited.
853.	39879	M/s. Multiple Marketing Private Limited.
854.	39882	M/s. Sira Infosys Private Limited.
855.	39889	M/s. Dickson Dates Private Limited.
856.	39890	M/s. Dharma Thermocool Private Limited.
857.	39904	M/s. Pallava Exports Private Limited.
858.	39913	M/s. Sri Muniyandi Finance & Investments Limited.
859.	39914	M/s. Pillars Builders Private Limited.
860.	39918	M/s. Dwarakanagar Departmental Stores Private Limited.
861.	39921	M/s. Kirthika Poultury Farms Private Limited.
862.	39926	M/s. Heavenly Lotus Chem Tech Engineers Private Limited.
863.	39950	M/s. Aakruti Pharma Private Limited.
864.	39963	M/s. Prasannaa Printograaphs Private Limited.
865.	39968	M/s. S. K. (Cabs) Private Limited.
866.	39973	M/s. MPN Webcity Communication Private Limited.
867.	39975	M/s. J. N. Oils & Laboratores Private Limited.
868.	39981	M/s. Chennai Systems & Solutions Private Limited.
869.	39995	M/s. Tanchem Petro Limited.
870.	40003	M/s. Pothigai Textile Mills Private Limited.
871.	40005	M/s. Component Software Private Limited.

1	2	3
872.	40024	M/s. Ganga Silver Stream Consultancy Services Private Limited.
873.	40058	M/s. Nova Systems Private Limited.
874.	40074	M/s. Nataraja Holdings and Investment (Madras) Private Limited.
875.	40078	M/s. A. R. Farms Private Limited.
876.	40097	M/s. R. P. K. Planters Private Limited.
877.	40136	M/s. Graphic Effects and Animation Technics India Private Limited.
878.	40145	M/s. Priya Engineering Services Private Limited.
879.	40146	M/s. Shridi Andavar Enterprises Private Limited.
880.	40150	M/s. Nandhikeswara Financial Services Private Limited.
881.	40156	M/s. Vennila Restaurants Private Limited.
882.	40158	M/s. Konar Farms Private Limited.
883.	40162	M/s. Maruthamalayaa Agency Private Limited.
884.	40163	M/s. Maha Marketing Private Limited.
885.	40164	M/s. Rightsearch HRD Consultants Private Limited.
886.	40170	M/s. Veeyes Hospitality Services Private Limited.
887.	40185	M/s. Sanpra Agro Exports Private Limited.
888.	40192	M/s. Namakkal Dairy Private Limited.
889.	40194	M/s. Markoorilose Sea Foods Private Limited.
890.	40200	M/s. Maaestro Production Private Limited.
891.	40204	M/s. Nilau Shipping Private Limited.
892.	40206	M/s. Sri Ayappan Agro Tech Private Limited.
893.	40207	M/s. Veeram Doorstep Supply and Services Private Limited.
894.	40218	M/s. Vikrisan Software Private Limited.
895.	40230	M/s. Jayamuthu Chit Funds Private Limited.
896.	40233	M/s. Capleo Fashions Private Limited.
897.	40240	M/s. Geeteeaar Golden Financial Services Private Limited.
898.	40258	M/s. Rockmine Granite Private Limited.

1	2	3
899.	40260	M/s. Grace Freight Forwarders Private Limited.
900.	40268	M/s. Eclat Instruments India Private Limited.
901.	40274	M/s. Al-Sabah Impex Private Limited.
902.	40286	M/s. Jagaran Technologies Private Limited.
903.	40289	M/s. Pegasus Sofitech Private Limited.
904.	40298	M/s. S & D Man Power Successful Services Private Limited.
905.	40304	M/s. Veeram Innovative Information and Services Private Limited.
906.	40316	M/s. BRS Constructions Private Limited.
907.	40333	M/s. Dhanalakshmi Textile Processors Private Limited.
908.	40336	M/s. Sovereign Impex Private Limited.
909.	40344	M/s. Sheen Foundtion Private Limited.
910.	40349	M/s. Orr Ess Emm Chit Funds Private Limited.
911.	40368	M/s. Tharanya Finance Private Limited.
912.	40379	M/s. GKLC Mining and Exports Private Limited.
913.	40380	M/s. Royson Exports Private Limited.
914.	40384	M/s. VJ Organics Private Limited.
915.	40391	M/s. Heramba Exports Private Limited.
916.	40395	M/s. Jaysakthi Air Travels Private Limited.
917.	40504	M/s. PMF Chits Private Limited.
918.	40507	M/s. Susgee Infotech Private Limited.

D. SURYA NARAYANA
Asst. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lonestar Supplies and Logistics Private Limited

Ernakulam-682021, the 7th August 2007

No.16728/560—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Lonestar Supplies and Logistics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
following Companies

Bangalore, the 1st August 2007

No. CVS/SBS-2005/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	6002	M/s. Rajassu Films Private Limited.
2.	6248	M/s. Antox India Private Limited.
3.	4702	M/s. Shanthi Engineering Industries Private Limited.
4.	1372	M/s. Madras Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited.
5.	10545	M/s. Rishiraj Hotels Private Limited.
6.	10320	M/s. Brooks Leather Exports Private Limited.
7.	6401	M/s. Indiana Foundation Private Limited.
8.	10208	M/s. Hevea Polymers Private Limited.
9.	6547	M/s. Dadaji Fruits Processing Private Limited.
10.	8829	M/s. Crystal Construction Private Limited.
11.	7613	M/s. Patel Systech Private Limited.
12.	2169	M/s. Pevac Containers Limited.
13.	9942	M/s. Sree Vydyanatheshwara Swamy Chit Funds Private Limited.
14.	9731	M/s. Newtech Building Products Private Limited.
15.	9718	M/s. Kayar Engineers Private Limited.
16.	7178	M/s. Indbacker India Limited.
17.	3033	M/s. Karnataka Motors Private Limited.
18.	7812	M/s. Thajallyath Buildmet Private Limited.

1	2	3
19.	9537	M/s. Southern Comforts Private Limited.
20.	9515	M/s. V. M. Constructions Private Limited.
21.	11995	M/s. Rich Granites (India) Private Limited.
22.	11970	M/s. Prakruthi Foods Private Limited.
23.	11957	M/s. Shiva Insta Apparels Private Limited.
24.	9607	M/s. Flora Fountain Constructions Private Limited.
25.	9340	M/s. M. V. Engineering Works Private Limited.
26.	9103	M/s. Anantha Computer Services Private Limited.
27.	11345	M/s. Kanthi Agro Process Private Limited.
28.	2736	M/s. Mahajan Drilling Company Private Limited.
29.	11367	M/s. Viju Marketing Private Limited.
30.	11462	M/s. Grateas Exports Private Limited.
31.	11216	M/s. Phisar Chit Funds Private Limited.
32.	11113	M/s. Aroor Leasing Finance and Investments Private Limited.
33.	3566	M/s. Mercara Agro Auctioneers Private Limited.
34.	3537	M/s. Sairam Chemicals (India) Private Limited.
35.	3401	M/s. Mysore Industrial Diamond Tools Private Limited.
36.	3222	M/s. Nagaraj and Associate Engineers Private Limited.
37.	2484	M/s. Sree Kanteshwara Chemicals & Dyes Private Limited.
38.	7624	M/s. S. R. M. Investment Company Limited.
39.	11052	M/s. Sathish Lights & Lights Private Limited.
40.	10658	M/s. Sleek Chrome Private Limited.

C. V. SAJEEVAN
Asst. Registrar of Companies
Karnataka